



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 8—अगस्त 14, 2015 (श्रावण 17, 1937)

No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 8—AUGUST 14, 2015 (SRAVANA 17, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त 2015

एकीकृत रक्षा मुख्यालय (थल सेना)

सैन्य अभियन्ता सेवायें

सं. 185, दिनांक 13 जुलाई 2015—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने दर्शाये गये पदों पर सामने लिखि गई तिथियों से सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

क्र. सं.	एम. ई. एस. सं.	पद	नाम (श्री/श्रीमति/सुश्री)	तिथि
1.	एनवाईए	ए.ई.ई. (बी/आर)	जाहिद परवेज	27 फरवरी 2012 (पूर्वाहन)
2.	486 841	ए.ई.ई. (क्यू.एस/सी)	आनन्द	18 जनवरी 2012 (पूर्वाहन)
3.	486 842	ए.ई.ई. (बी/आर)	मो. अनवर	10 फरवरी 2012 (पूर्वाहन)
4.	300 466	ए.ई.ई. (बी/आर)	नवीन सिंघला	07 मई 2011 (पूर्वाहन)

क्र. सं.	एम. ई. एस. सं.	पद	नाम (श्री/श्रीमति/सुश्री)	तिथि
5.	300 467	ए.ई.ई. (बी/आर)	मोहित गोयल	06 मई 2011 (पूर्वाहन)
6.	एनवाईए	ए.ई.ई. (बी/आर)	अमित कुमार परमार	19 सितम्बर 2011 (पूर्वाहन)
7.	एनवाईए	ए.ई.ई. (ई/एम)	प्रशांत शिवहरे	20 सितम्बर 2011 (पूर्वाहन)
8.	एनवाईए	ए.ई.ई. (सिविल)	राजीव रन्जन	15 नवम्बर 2012 (पूर्वाहन)
9.	एनवाईए	ए.ई.ई. (सिविल)	रोहित	19 दिसम्बर 2012 (पूर्वाहन)
10.	486 847	ए.ई.ई. (सिविल)	निरंजन लाल	28 दिसम्बर 2012 (अप्रहान)
11.	607 779	ए.ई.ई. (ई/एम)	चव्हाण सचिन हिरामण	10 जुलाई 2013 (पूर्वाहन)
12.	एनवाईए	ए.ई.ई. (सिविल)	विजय नेहरा	24 दिसम्बर 2014 (पूर्वाहन)
13.	एनवाईए	ए.ई.ई. (सिविल)	हिमान्यु मक्कड़	19 जनवरी 2015 (पूर्वाहन)
14.	एनवाईए	ए.ई.ई. (सिविल)	कृष्णा नन्दन कुमार	08 जून 2013 (पूर्वाहन)
15.	300 476	ए.ई.ई. (सिविल)	अंशुल बंसल	14 मार्च 2013 (पूर्वाहन)
16.	300 478	ए.ई.ई. (सिविल)	विशाल गुप्ता	18 अप्रैल 2013 (पूर्वाहन)
17.	300 477	ए.ई.ई. (ई/एम)	लोकेश गोयल	14 मार्च 2013 (पूर्वाहन)
18.	एनवाईए	ए.ई.ई. (ई/एम)	अनुराग कुमार गुप्ता	21 जून 2013 (पूर्वाहन)
19.	300 474	ए.ई.ई. (सिविल)	अजमत अरशी	04 फरवरी 2013 (पूर्वाहन)
20.	125 408	ए.ई.ई. (सिविल)	आर सुरेश बालाजी	14 मार्च 2013 (पूर्वाहन)
21.	486 844	ए.ई.ई. (सिविल)	राजेश कुमार बर्तावाल	08 अक्टूबर 2012 (पूर्वाहन)
22.	एनवाईए	ए.ई.ई. (सिविल)	अभिषेक गुप्ता	14 मार्च 2013 (पूर्वाहन)
23.	एनवाईए	ए.ई.ई. (सिविल)	मोहन सिंह यादव	14 मार्च 2013 (पूर्वाहन)
24.	एनवाईए	ए.ई.ई. (सिविल)	आशीष रंजन सिंहा	14 मार्च 2013 (पूर्वाहन)
25.	एनवाईए	ए.ई.ई. (सिविल)	नंदन कुमार	14 मार्च 2013 (पूर्वाहन)
26.	एनवाईए	ए.ई.ई. (सिविल)	सोहित कुमार वर्मा	15 मार्च 2013 (पूर्वाहन)
27.	194 057	ए.ई.ई. (ई/एम)	योगेश कुमार पार्ले	26 मार्च 2012 (पूर्वाहन)
28.	314 299	ए.ई. (क्यू.एस/सी)	सुरेन्द्र कुमार	25 जनवरी 2012 (पूर्वाहन)
29.	170 454	ए.ई. (ई/एम)	यम वि रमणा रेडि	30 मई 2011 (पूर्वाहन)
30.	208 349	ए.ई. (ई/एम)	बरुन दास	06 अगस्त 2009 (पूर्वाहन)
31.	154 173	ए.ई. (ई/एम)	दीपक कुमार पाल	02 फरवरी 2009 (पूर्वाहन)
32.	196 193	ए.ई. (सिविल)	बी सुदाकरा राव	23 फरवरी 2011 (पूर्वाहन)
33.	137 802	ए.ई. (सिविल)	वी जी मुरलीधरन	25 जुलाई 2011 (पूर्वाहन)
34.	170 446	ए.ई. (सिविल)	पी डी गिरमे	23 जुलाई 2011 (पूर्वाहन)
35.	187 893	ए.ई. (सिविल)	सजिता वि ए	31 दिसम्बर 2011 (पूर्वाहन)
36.	448 625	ए.ई. (ई/एम)	अशोक कुमार पाठक	30 मई 2011 (पूर्वाहन)
37.	510 014	ए.ई. (सिविल)	मंगल सिंह मेलगान्डी	16 जनवरी 2012 (पूर्वाहन)
38.	170 403	ए.ई. (क्यू.एस/सी)	भिकन बाबूभाई बागवान	25 जनवरी 2012 (अपराहन)
39.	171 156	ए.ई. (क्यू.एस/सी)	मुकुंद गोविंद मुद्रल	25 जनवरी 2012 (पूर्वाहन)
40.	314 367	ए.ई. (क्यू.एस/सी)	रजनीश कुमार	24 जनवरी 2012 (पूर्वाहन)

क्र. सं.	एम. ई. एस. सं.	पद	नाम (श्री/श्रीमति/सुश्री)	तिथि
41.	234 778	ए.ई. (सिविल)	योगेन चन्द्र राभा	31 दिसम्बर 2011 (पूर्वाहन)
42.	192 825	ए.ई. (ई/एम)	जगजीत सिंह	30 मई 2011 (पूर्वाहन)
43.	264 677	ए.ई. (क्यू.एस/सी)	सुभाष बर्मन	14 फरवरी 2011 (पूर्वाहन)
44.	123 543	ए.ई. (सिविल)	आर धनजय	25 जुलाई 2011 (पूर्वाहन)
45.	187 892	ए.ई. (सिविल)	लिसी के ए	25 जुलाई 2011 (पूर्वाहन)
46.	149 547	ए.ई. (सिविल)	परतुवयगिल याकीब बेबी	23 जुलाई 2011 (पूर्वाहन)
47.	421 457	ए.ई. (सिविल)	सुर्य प्रकाश अग्रवाल	23 जुलाई 2011 (पूर्वाहन)
48.	189 710	ए.ई. (सिविल)	चितावेंकट रमणा	03 जनवरी 2012 (पूर्वाहन)
49.	111 721	ए.ई. (ई/एम)	सुनिल प्रभाकर राव	25 जुलाई 2009 (पूर्वाहन)
50.	422 181	ए.ई. (सिविल)	राजीव कुमार राजवंशी	25 जुलाई 2011 (पूर्वाहन)
51.	134 984	ए.ई. (सिविल)	के संपथ कुमार	25 जुलाई 2011 (पूर्वाहन)
52.	137 801	ए.ई. (सिविल)	वी अब्दुस्समद	25 जुलाई 2011 (पूर्वाहन)
53.	123 499	ए.ई. (ई/एम)	चन्द्रभान	25 जुलाई 2009 (पूर्वाहन)
54.	205 175	ए.ई. (ई/एम)	मदन मोहन सिद्धान्ता	31 मई 2011 (पूर्वाहन)
55.	314 245	ए.ई. (क्यू.एस/सी)	जमवीर सिंह	24 जनवरी 2012 (पूर्वाहन)
56.	117 134	ए.ई. (सिविल)	पी वी वाला	31 अक्टूबर 2011 (पूर्वाहन)
57.	126 905	ए.ई. (ई/एम)	टी वी नम्मालवर	11 मई 2005 (पूर्वाहन)
58.	137 814	ए.ई. (सिविल)	सा डी सुधाकरन	25 जुलाई 2011 (पूर्वाहन)
59.	142 006	ए.ई. (सिविल)	अ वि प्रभाकर	25 जुलाई 2011 (पूर्वाहन)
60.	180 785	ए.ई. (सिविल)	न क्रिशनन	02 जनवरी 2012 (पूर्वाहन)
61.	187 621	ए.ई. (सिविल)	राजेन्द्रन एन	23 जुलाई 2011 (पूर्वाहन)
62.	187 043	ए.ई. (बी /आर)	विजय लक्ष्मी	31 दिसम्बर 2011 (पूर्वाहन)
63.	136 909	ए.ई. (सिविल)	एस रामू	02 जनवरी 2012 (पूर्वाहन)
64.	447 895	ए.ई. (ई/एम)	संतोश कुमार जोशी	11 जुलाई 2005 (पूर्वाहन)
65.	170 478	ए.ई. (सिविल)	आर जे शिंदे	15 मई 2013 (पूर्वाहन)
66.	156 354	ए.ई. (सिविल)	जय भगवान	27 जून 2013 (पूर्वाहन)
67.	204 988	ए.ई. (ई/एम)	प्रदीप कुमार दत्त	23 मई 2012 (पूर्वाहन)
68.	247 030	ए.ई. (ई/एम)	अमित कुमार दास	01 नवम्बर 2012 (पूर्वाहन)
69.	315 407	ए.ई. (ई/एम)	यतिन्द्र कुमार	01 फरवरी 2013 (पूर्वाहन)
70.	239 022	ए.ई. (ई/एम)	राज किशोर प्रशाद	26 अक्टूबर 2012 (अपराहन)
71.	315 362	ए.ई. (ई/एम)	रँजन चाँद	08 फरवरी 2013 (पूर्वाहन)
72.	316 608	ए.ई. (बी /आर)	लोकेश कुमार मीना	26 जून 2013 (पूर्वाहन)
73.	159 076	ए.ई. (ई/एम)	गोपाल कृष्ण सिद्रामप्पो अबलढगे	24 मई 2013 (पूर्वाहन)
74.	600 778	ए.ई. (ई/एम)	प्रमोद प्रभाकर कुलकर्णी	30 मई 2011 (अपराहन)
75.	113 405	ए.ई. (ई/एम)	शंकरप्पा मल्लप्पा कोरबु	24 अप्रैल 2012 (पूर्वाहन)
76.	187 515	ए.ई. (ई/एम)	एल महेश	25 अक्टूबर 2012 (पूर्वाहन)

क्र. सं.	एम. ई. एस. सं.	पद	नाम (श्री/श्रीमति/सुश्री)	तिथि
77.	122 815	ए.ई. (ई/एम)	प्रकाश आत्माराम महाजन	01 अगस्त 2012 (पूर्वाहन)
78.	600 213	ए.ई. (क्यू.एस/सी)	अंकुश दतोबा पांडरे	14 फरवरी 2011 (पूर्वाहन)
79.	117 471	ए.ई. (ई/एम)	संदीप एम पटवा	23 अक्टूबर 2012 (पूर्वाहन)
80.	171 402	ए.ई. (सिविल)	व्ही पी पवित्रण	02 जनवरी 2012 (पूर्वाहन)
81.	123 460	ए.ई. (सिविल)	महेश कुमार तिवारी	30 मार्च 2005 (पूर्वाहन)
82.	170 890	ए.ई. (ई/एम)	शकील अहमद	24 जुलाई 2009 (पूर्वाहन)
83.	208 373	ए.ई. (ई/एम)	सुभाष सेन गुप्ता	26 अक्टूबर 2012 (पूर्वाहन)
84.	195 667	बी एसओ	हेमन्त कुमार	28 अक्टूबर 2009 (पूर्वाहन)
85.	188 988	बी एसओ	वीणा हेमंत कुलकर्णी	27 मई 2004 (पूर्वाहन)
86.	129 551	बी एसओ	तमिलअरसु रामासामी	03 सितम्बर 2010 (पूर्वाहन)
87.	120 087	बी एसओ	सी डी गांगुर्डे	24 सितम्बर 2012 (पूर्वाहन)
88.	693 086	बी एसओ	भूपेन्द्र मनहरलाल जानी	27 सितम्बर 2014 (पूर्वाहन)
89.	269 117	बी एसओ	मृदुल साहा	24 सितम्बर 2014 (पूर्वाहन)
90.	602 150	बी एसओ	के बिजु कुमार	24 सितम्बर 2012 (पूर्वाहन)
91.	502 190	बी एसओ	अशोक कुमार	20 अप्रैल 2013 (पूर्वाहन)
92.	422 730	बी एसओ	विशाल गौरव	24 सितम्बर 2012 (पूर्वाहन)
93.	121 022	बी एसओ	टि सी चंद्रशेखरन नायर	22 सितम्बर 2012 (पूर्वाहन)
94.	127 963	बी एसओ	संजीव कुमार	21 सितम्बर 2012 (पूर्वाहन)
95.	609 404	बी एसओ	अगंद तिवारी	22 सितम्बर 2012 (पूर्वाहन)
96.	480 307	बी एसओ	रमेश कुमार सिंह	24 सितम्बर 2012 (पूर्वाहन)
97.	280 600	बी एसओ	अरविन्द कुमार सिंह	24 सितम्बर 2012 (पूर्वाहन)
98.	419 946	बी एसओ	प्रमोद कुमार	30 मार्च 2011 (पूर्वाहन)
99.	186 009	एस बी एसओ	कैलाश चन्द शर्मा	06 अप्रैल 2011 (पूर्वाहन)
100.	175 233	एओ-I	प्रतिभा हेमंत कोरड	21 अगस्त 2011 (पूर्वाहन)
101.	263 301	एओ-II	नमिता मुखोपादयाय	16 जनवरी 2012 (पूर्वाहन)
102.	169 504	एओ-II	टी बी गोपिनाथन नायर	11 फरवरी 2013 (पूर्वाहन)
103.	183 503	एओ-II	डी सुबाया	28 जुलाई 2012 (पूर्वाहन)
104.	120 634	एओ-II	सुलोचना विजय नायर	15 फरवरी 2013 (पूर्वाहन)
105.	312 628	पीएस	रुकमणी देवी	01 मई 2012 (पूर्वाहन)
106.	312 489	पीएस	महावीर प्रसाद	27 अप्रैल 2012 (पूर्वाहन)
107.	312 761	पीएस	राजकुमार	16 अगस्त 2012 (पूर्वाहन)
108.	312 791	पीएस	मन्जु भाशनी	20 अप्रैल 2012 (पूर्वाहन)
109.	192 186	एओ-II	पुरुषोत्तमन पिल्ला	07 फरवरी 2013 (पूर्वाहन)

सेना शाखा

सं० 186, दिनांक 14 जुलाई 2015—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

लै. बनाया जाता है

चन्द्र बाहादुर यादव

टीए-42966

(इन्जीनियर टीए)

24 जनवरी 2015

भारत भूषण जोशी
अवर सचिव

थल सेना शाखा

सं० 187, दिनांक 15 जुलाई 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

लेफ्टिनेंट कर्नल (व समकक्ष) से कर्नल (व समकक्ष) के पद पर

के डी सोढी (एमआर-07147वाई)	—	01-10-10, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 06-09-10 से दी जाती है ।
बी भूयान (एमआर-06611एल)	—	22-11-10, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 11-09-10 से दी जाती है ।
राजू अग्रवाल (एमआर-06020के)	—	01-12-10, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 15-09-10 से दी जाती है ।
जे एस भाटिया (एमआर-06025एच)	—	01-12-10, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 15-09-10 से दी जाती है ।
एम एस गिल (एमआर-06028डब्ल्यू)	—	01-12-10, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 25-09-10 से दी जाती है ।
ए जी माथुर (एमआर-06027एन)	—	01-12-10, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-10-10 से दी जाती है ।
समीर कुमार (एमआर-06169एल)	—	12-06-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-05-11 से दी जाती है ।
एस राधाकृष्णन (एमआर-06707एन)	—	02-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-05-11 से दी जाती है ।
एस सुरेश कुमार, वीएसएम (एमआर-06225वाई)	—	12-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-05-11 से दी जाती है ।
एम चट्टर्जी (एमआर-06226एफ)	—	12-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07-05-11 से दी जाती है ।

ए के घोष (एमआर-06227के)	-	12-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 22-05-11 से दी जाती है ।
सौरव सेन (एमआर-06229पी)	-	12-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-06-11 से दी जाती है ।
डी मुखर्जी (एमआर-06230के)	-	12-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 24-06-11 से दी जाती है ।
पी देब (एमआर-06233एक्स)	-	12-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 24-06-11 से दी जाती है ।
आलोक सेन (एमआर-06236एल)	-	12-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 27-06-11 से दी जाती है ।
वाई एस सिरोही (एमआर-06240एन)	-	12-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-07-11 से दी जाती है ।
आर पखेत्रा (एमआर-06243एफ)	-	12-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 19-07-11 से दी जाती है ।
यशपाल सिंह (एमआर-06244के)	-	12-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 19-07-11 से दी जाती है ।
आलोक भल्ला (एमआर-06245एम)	-	12-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-08-11 से दी जाती है ।
ए चंद्रा (एमआर-06247एक्स)	-	12-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-08-11 से दी जाती है ।
आर रामप्रसाद (एमआर-06249एच)	-	12-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-08-11 से दी जाती है ।
राकेश वर्मा (एमआर-06250एक्स)	-	12-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-08-11 से दी जाती है ।
एम ए परवाज (एमआर-06251ए)	-	12-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-08-11 से दी जाती है ।
आनंद मिश्रा (एमआर-06257एफ)	-	12-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-08-11 से दी जाती है ।
जसविंदर सिंह (एमआर-06256वाई)	-	12-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 11-08-11 से दी जाती है ।
अमूल कपूर (एमआर-06258के)	-	12-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 16-08-11 से दी जाती है ।
रजत जगानी (एमआर-06259एम)	-	12-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 19-08-11 से दी जाती है ।

सुक्रीति बावेजा (एमआर-06260एफ)	-	12-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 23-08-11 से दी जाती है ।
पी तलवार, वीएसएम (एमआर-06262एम)	-	12-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 29-08-11 से दी जाती है ।
आर नायर (एमआर-06265ए)	-	12-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-09-11 से दी जाती है ।
एस मानसिंह (एमआर-06269डब्ल्यू)	-	12-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-09-11 से दी जाती है ।
एस भल्ला (एमआर-06273वाई)	-	12-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-09-11 से दी जाती है ।
एस के रोडे (एमआर-06280पी)	-	12-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07-09-11 से दी जाती है ।
एन एस छाबडा (एमआर-06283एच)	-	12-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 12-09-11 से दी जाती है ।
के मोहन (एमआर-06722एच)	-	19-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-10-11 से दी जाती है ।
पंकज शर्मा (एमआर-06274एफ)	-	20-12-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-10-11 से दी जाती है ।
विजयकुमार आर (एमआर-07220एम)	-	27-03-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 18-10-11 से दी जाती है ।
एस नस्कर (एमआर-07044ए)	-	29-04-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 19-10-11 से दी जाती है ।
एस दास (एमआर-06724एन)	-	22-06-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 12-12-11 से दी जाती है ।

सर्ज कमांडर से सर्ज कैप्टन (टीएस) के पद पर

एमआर-06465डब्ल्यू (75443-के)	सर्ज कमांडर	एम वाई धर्माभिर	08 नवंबर 2012
एमआर-05944एल (75470-वाई)	सर्ज कमांडर	आर एस मल्ली	01 दिसंबर 2013
एमआर-06663ए (75495-बी)	सर्ज कमांडर	एम जोसेफ	22 अप्रैल 2014
एमआर-06138एल (75475-एच)	सर्ज कमांडर	गगन डी भानोट	03 जनवरी 2015

सर्ज कैप्टन (व समकक्ष) से सर्ज कमांडर (व समकक्ष) के पद पर

एस के सिन्हा (एमआर-05396वाई)(75372-जेड)	-	09-10-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 06-07-14 से दी जाती है ।
--	---	--

सी एस नायडु (एमआर-05133ए)(75343-एच)	—	01-10-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-08-14 से दी जाती है ।
ए सरीन (एमआर-05296एन)(75408-एफ)	—	01-02-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-02-15 से दी जाती है ।

धर्मवीर सिंह
ब्रिगे.

उप महानिदेशक स.से.चि.से.(मा.सं)

सेना शाखा

सं. 188, दिनांक 16 जुलाई 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से लै. कर्नल

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विसिज	लै. कर्नल दिनांक से
आई सी - 60541	गगनदीप सिंह चिमनी	आर्टी	09 जून 2014
आई सी - 60545	नवल जोशी	इंजीनियर्स	09 जून 2014
आई सी - 60547	आशीष उपरेती	इंजीनियर्स	09 जून 2014
आई सी - 60562	मंदर जोगलेकर	इंफैंट्री	09 जून 2014
आई सी - 60573	गौरव राठौर	आर्टी	09 जून 2014
आई सी - 60825	हर्ष मिश्रा	इंफैंट्री	09 जून 2014

आई सी-60574	संदीप कुमार	ए एस सी
-------------	-------------	---------

—09 जून 2014

आई सी-60665	सुनील तमंग	आर्मी एविएशन
-------------	------------	--------------

—09 जून 2014

आई सी - 60751	गुरमिंदर सिंह	सिग्नलस
आई सी - 60752	अमरजीत दास	ए ए डी

—09 जून 2014

आई सी - 60924	विशाल शर्मा	ए ओ सी	09 जून 2014
आई सी - 61001	हिमांशु रेड्डी	इंजीनियर्स	09 जून 2014
आई सी-61016	अतुल कटोच	सिग्नल्स	09 दिसम्बर 2014

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विसिज	लै. कर्नल दिनांक से
आई सी 61329	पवन नेहरा	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61330	नैपोलियन नायक	ए ए डी	08 दिसम्बर 14

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विसिज	लै. कर्नल दिनांक से
आई सी 61331	मुकुंद भारद्वाज	ए ए डी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61332	अमोलजीत सिंह गिल	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61333	अभिनंदन सरपूरे	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61334	जी एच हशन नाथ	ए ए डी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61335	अक्षय कुमार ओहरी	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61336	तुषार जेकब आर्शीवादम	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61337	सिद्धार्थ सिंह	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61338	प्रशांत कुकुरेती	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61339	रोहित मुखर्जी	मेक इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61340	शशि भूषण मिश्रा	ए ओ सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61341	शिव नील गांगुली	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61342	संजय सिंह कार्की	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61343	अजय सिंह	सिग्नल्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61344	शांतनु कुमार	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61345	वरुण दीक्षित	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61346	निशांत परमार	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61347	मोहित सिंह	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61348	प्रदुम्न सिंह चांद	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61349	विकास पांडे	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61350	अनिमेश झा	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61351	आदित्य प्रताप सिंह	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61352	संतोष कुमार सिंह	मेक इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61353	आशीष कोइजम	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61354	मिलन पटनायक	सिग्नल्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61355	गौरव पांडे	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61357	नेकटर संजेनबम	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61358	सिद्धरमेश एम रामपुर	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61359	धर्मेन्द्र सिंह नेगी	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61361	अजय पंडित	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61362	परविंदर सिंह	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61363	संदीप प्रकाश रॉव	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61364	अजय राघव	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61365	जशजीत सिंह	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विसिज	लै. कर्नल दिनांक से
आई सी 61366	प्रदीप कुमार गिल	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61367	सौरभ सक्सेना	सिग्नल्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61368	सुभाशीष घोष	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61369	अनुप सिंह खुतेल	सिग्नल्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61370	डी नवीन बेनजीत	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61371	राजेश शर्मा	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61372	हितेन्दर पार्ती	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61373	रूपेन्द्र मल्होत्रा	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61375	मयनक देब	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61376	मोहित मिश्रा	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61377	योगेश सिंह	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61378	बलजीत सिंह	मेक इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61379	दीपक तिवारी	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61380	सी विद्याधरन	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61382	आशीष लाल	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61383	निपुण कृष्णन	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61384	विनीत तलुजा	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61385	सुमित कटटी	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61386	शेखर अत्री	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61388	नीरज नैथानी	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61389	केदार मधुकर अराधये	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61391	प्रदीप सिंह मनहास	सिग्नल्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61392	वी श्रीहरी	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61393	अंकुर विकास वैद्य	ए ए डी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61394	विक्रम नेहरा	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61395	गगनदीप सिंह नंदा	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61397	रैक्शन रोबर्टसन	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61398	विशाल कुमार सिंह	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61399	अनिल मेहता	ए वी एन	08 दिसम्बर 14
आई सी 61400	संदभोर प्रतीक गंगाधर	मेक इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61401	संजु मैथ्यु	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61402	समरजीत रे	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61403	अप्रतीम शर्मा	ए ए डी	08 दिसम्बर 14

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विसिज	लै. कर्नल दिनांक से
आई सी 61404	जतिन्दर सिंह रंधावा	सिग्नलस	08 दिसम्बर 14
आई सी 61405	अमित कुमार	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61406	प्रीतम रावुल	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61407	हरीम राकेश ठाकुर	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61408	अभिषेक चावला	आर्मी ए वी एन	08 दिसम्बर 14
आई सी 61409	शैलेश कुमार रॉय	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61411	शुर्तिथो रॉय	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61412	आर विष्णु शंकर	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61413	कश्यप ठक्कर	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61414	स्वरूप सिंह कुंतल	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61415	अजय कुमार	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61416	सुखजिंदर पॉल सिंह	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61418	एम संजीव	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61419	आशीष कुमार	ए ओ सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61420	रंजीत सिंह हुंडल	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61421	रोशन सिंह बुटोला	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61423	विनोद कुमार अधिकारी	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61424	हिमांशु बिजलवान	ए ओ सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61425	विरेन्द्र सिंह फोगट	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61426	करावदी श्रीकांत	सिग्नलस	08 दिसम्बर 14
आई सी 61427	तथागत दत्ता	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61428	प्रशांत भारद्वाज	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61429	कुलदीप सिंह राठी	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61430	उम्मनीदी वंकटेशवर रॉव	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61431	राकेश कुमार सिंह	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61432	गुरप्रीत सिंह बाली	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61433	शुहेल वाई सोदागर	मेक इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61434	पंकज कुमार मिश्रा	सिग्नलस	08 दिसम्बर 14
आई सी 61435	रंजीत आर नायर	ए ए डी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61436	योग कृष्ण पाटक	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61437	अमित कोटनाला	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61438	राम पाल दहिया	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61439	ध्यान चंद हिस्नम	ए एस सी	08 दिसम्बर 14

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विसिज	लै. कर्नल दिनांक से
आई सी 61440	पुष्पज कश्यप	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61441	सत्य सुन्दर मिश्रा	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61442	प्रदीप कुमार दीक्षित	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61443	विपिन चौहान	ए ओ सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61444	देवानंद एम मथपती	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61445	शाम देव	ए ओ सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61446	सोरव नारायण डे	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61447	शिखर चतुर्वेदी	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61448	अनिश बाबू	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61449	मयंक शर्मा	ए ए डी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61450	संग्राम सिंह	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61451	सुनील कुमार	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61452	एम पी अप्पड्या	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61454	आलोक मोहंती	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61455	रजनीश परमार	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61456	अनुप सिंह	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61457	सूर्यजीत अहलावत	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61458	विशाल शर्मा	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61459	अभिषेक बिष्ट	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61461	सिद्धार्थ शुक्ला	सिग्नलस	08 दिसम्बर 14
आई सी 61463	सुचेत कथुरिया	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61464	अक्षत आनंद	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61466	अमित काडियन	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61467	सचिन कार्निक शाम	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61468	अंजीत ओहरी	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61469	मंदीप सिंह घुम्मन	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61470	रजत पोखरियाल	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61471	थोदम आनंद सिंह	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61472	संतोष रावत	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61473	राजन व्यास	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61474	डी सूजा नेस्टर डेररिक	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61475	समीर अरोडा	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61476	रितेश सिंह	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विसिज	लै. कर्नल दिनांक से
आई सी 61477	अमित गुप्ता	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61478	अमित मैथ्यू	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61479	नमित रॉय	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61480	कार्तिकय कुकरेती	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61481	सुनील कुमार मोर	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61482	रजत साहनी	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61483	रोहित शर्मा	सिग्नल्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61485	राहुल स्लाथिया	इंट	08 दिसम्बर 14
आई सी 61486	प्रविंदर सिंह नेगी	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61487	सुखदीप सिंह	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61488	गौरव जैन	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61490	प्रशांत एस अप्पाजी	सिग्नल्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61491	अभिषेक मोहन	ए ए डी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61492	राहुल सांगा	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61494	परमवीर सिंह बिष्ट	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61495	अमन अबरोल	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61496	सुनील कुमार डोगरा	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61497	हर्षद एच डांडेकर	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61499	प्रशांत राणा	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61500	अमित खन्ना	ए ओ सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61501	सरबजीत सिंह	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61502	के एस केविन	ए ए डी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61503	अंकित सरिन	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61505	अमरीक बादीयाल	सिग्नल्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61506	नसीर फैजल जीया	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61508	विजेन्द्र कुमार सांगवान	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61509	ब्रिजेन्द्रा सिंह	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61510	शेजर धर	सिग्नल्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61511	यशोकृति गौड	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61512	आशीष शर्मा	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61513	पुनीत प्रताप सिंह तोमर	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61514	हरप्रीत सिंह कोहली	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61515	इंदर पाल सिंह	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विसिज	लै. कर्नल दिनांक से
आई सी 61516	अमित कुमार	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61517	कमल वेनू नायर	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61518	राहुल	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61519	जयवीर सिंह नेगी	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61520	जोजो जेकब	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61521	अक्षय गर्ग	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61522	विमल कुमार खांडका	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61523	राजेश कुमार सिंह	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61524	संतोष कुमार	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61527	गोपाल सिंह	सिग्नल्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61528	विजय सिंह दिल्लीन	ए ओ सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61529	घनश्याम	मेक इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61530	मानस खडंगा	ए ए डी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61531	विकास शर्मा	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61532	जितेन्द्रा सिंह	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61533	पार्थासार्थी रॉय	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61536	ब्रह्म देव मलिक	ए ओ सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61537	प्रशांत कैकर	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61538	दीपक जोशी	सिग्नल्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61540	सचिन रस्तोगी	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61541	विमल जी नायर	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61542	पंकज शर्मा	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61543	एस रवि प्रकाश	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61544	ए विजया कुमार	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61545	पी मधुसूदन रॉय	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61546	यतेन्द्रा कुमार माग्रीया	ए ओ सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61547	प्रमोद सिंह	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61549	विमल कुमार रे	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61550	बेबी पत्तनायक	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61551	अर्थ कुकरेती	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61552	रमेश प्रकाश	मेक इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61555	सुनील कुमार	सिग्नल्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61556	स्नेहल राठौड	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विसिज	लै. कर्नल दिनांक से
आई सी 61557	अजय कुमार शर्मा	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61558	विकास कुमार बुद्धिराजा	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61559	विक्रमजीत सिंह साही	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61560	सुनील शर्मा	ए ए डी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61563	नीतेश कुमार वसंत सुतार	ए ओ सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61564	राकेश चन्दर	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61565	गुरबीर सिंह कहलोन	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61566	रजत पल्लव	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61567	उदई भानू	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61568	अभिषेक सक्सेना	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61569	मनोज कुमार	ए वी एन	08 दिसम्बर 14
आई सी 61571	सुमित पालीवाल	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61572	कंवर जीत सिंह	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61573	आशीष एडविन मोजिस	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61574	सुप्रीत कुमार बासु	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61575	उदय मोहन तिवारी	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61576	आनंद कुमार	इंट	08 दिसम्बर 14
आई सी 61577	अमित कुमार शर्मा	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61578	चेतन तिवारी	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61579	राम मोहन पुरोहित	मेक इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61580	पावेल रॉय	इंट	08 दिसम्बर 14
आई सी 61581	राहुल अरविंद पवार	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61582	नरेश चन्द्र गैरोला	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61583	पवन सिंह	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61584	विवेक कुमार द्विवेदी	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61585	अजय भट	सिग्नल्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61586	सागर प्रकाश चौधरी	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61587	तेजेन्दर सिंह	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61588	नवीन कुमार सी हिरमथ	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61589	गौरव सिंह मन्हास	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61592	राजेश पटानिया	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61593	अमित कुमार मिश्रा	सिग्नल्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61594	सिद्धार्थ दिलीप देशमुख	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विसिज	लै. कर्नल दिनांक से
आई सी 61595	अमित ठाकुर	ए ए डी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61596	आशुतोष श्रीवास्तव	ए ओ सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61598	मुनीश गोयल	मेक इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61599	आलोक कुमार	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61600	सुदीप दत्ता	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61601	एस प्रवीण	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61602	देवाशीष नायक	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61603	सीजो एन्थोनी	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61604	गौरव थापा	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61605	के वी विमल	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61606	प्रियतोश गांगुली	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61607	भरत सिंह	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61608	मिलिंद सिंदे	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61609	अमनबीर सिंह गिल	ए ए डी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61610	मनीश जोशी	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61611	रजनीकांत उपाध्याय	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61612	सूर्य प्रकाश पांडे	सिग्नल्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61613	प्रीतिंदर सिंह चोहान	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61615	टी एस नारायन	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61616	एस वाई केलापूरे	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61617	रंजीत श्रीवास्तवा	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61618	विनीत तोमर	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61619	मिस्बाहुददीन खान	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61620	अचलेश कुमार दहिया	ए ई सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61621	हिमांशु मिश्रा	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61622	हर्ष वर्धन शर्मा	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61623	सुधीर शर्मा	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61624	पंकज प्रकाश जैन	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61625	शमीम मियां अंसारी	ए ओ सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61626	सुब्रहाकांत मोहंती	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61627	क अरुण प्रसाद	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61628	परमानंद दास	ए ए डी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61629	अनुराग गुप्ता	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विसिज	लै. कर्नल दिनांक से
आई सी 61631	अमरदीप सिंह रावत	सिग्नलस	08 दिसम्बर 14
आई सी 61632	मितेश खाटी	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61634	अमरीश मोगे	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61635	प्रशांत कुमार सिंह	मेक इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61636	भुपेन्द्रा सिंह छिकारा	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61637	अजय कुमार पांडये	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61638	नीरज कोहली	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61639	योगेश चेतरी	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61640	विवेक शर्मा	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61642	नीरज चौधरी	सिग्नलस	08 दिसम्बर 14
आई सी 61644	नीखिल थाकर	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61645	प्रणय सिंधु	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61646	राजेश कुमार झा	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61647	मनोज धपोला	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61649	पंकज शर्मा	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61650	सुभाष प्रधान	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61651	अपूर्व भटनागर	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61653	अनुप ए पी	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61655	मनोज गुरंग	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61656	विनोद शर्मा	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61658	अमित चंद्रा	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61659	सभ्यासाक्षी बाकुंदी	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61660	रियोबेन वर्गिज फिलिप	इंट	08 दिसम्बर 14
आई सी 61661	सुमंत बी कदम	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61663	यतिंदर कुमार	मेक इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61664	शैलेंद्रा यादव	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61667	परिहल लायसराम	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61668	विक्रम सिंह भाटी	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61669	नीरज तिवारी	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61671	रजनीश सिंह साकरवार	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61672	पुष्पक मिश्रा	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61673	हर्ष वर्धन पांडये	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61674	लक्ष्मण सिंह दयोपा	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विसिज	लै. कर्नल दिनांक से
आई सी 61675	पी कलीप्पन	सिग्नल्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61676	सिद्धार्था	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61677	अनुप कुमार त्रिपाठी	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61679	रवि दुबे	ए वी एन	08 दिसम्बर 14
आई सी 61681	भगत प्रीत सिंह बेदी	ए ओ सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61683	संभव खुगशल	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61686	श्रीकेश	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61687	दीपक पांडये	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61688	संदीप कौशिक	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61689	अनिल कुमार कश्यप	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61690	नंदा कुमार कैमल	सिग्नल्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61691	अजय कंडपाल	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61692	संजीव कुमार सम्भ्रिया	सिग्नल्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61693	विमल मोहन नैथानी	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61694	प्रदीप कुमार द्विवेदी	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61695	दिलावर सिंह ढाका	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61696	विरजेन्द्रा सिंह चौहान	सिग्नल्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61698	नवीन कुमार साह	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61699	राकेश कुमार सिंह	ए ए डी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61700	संजय कुमार नरवाल	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61701	संदीप राणा	सिग्नल्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61703	जाधव मिलिंद पांडुरंग	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61704	रमेश सिंह	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61705	रितेश कुमार पांडे	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61706	संजीव कुमार नैन	ए ओ सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61707	पीयुष कुमार शुक्ला	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61708	अभिनव गुप्ता	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61710	जेम्स सैमुवल	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61712	विपिन कुमार श्रीवास्तव	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61713	संजीव ठाकुर	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61715	हिमांशु सभरवाल	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61716	जय विजय सिंह रावत	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61717	क्षितिज भाटिया	ए सी	08 दिसम्बर 14

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विसिज	लै. कर्नल दिनांक से
आई सी 61718	वैभव जोशी	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61719	आरोन कांडपाल	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61720	अनिल कुमार शर्मा	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61721	राजीव भाटिया	ए ओ सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61722	अजय पाल कौशल	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61725	विजय सिंह बलहारा	मेक इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61726	अरुण कुमार सिंह राघव	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61727	गुरजीत सिंह	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61728	राहुल गगनेजा	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61729	एम वी एस एन ए भागवान	ए ए डी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61730	तनिक सूद	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61731	प्रशांत सिंह	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61732	रमन यादव	मेक इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61733	रतनपाल सिंह आर्य	ए ओ सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61734	अमित कुमार	सिग्नलस	08 दिसम्बर 14
आई सी 61735	पंकज कुमार उपाध्या	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61736	सुरेन्द्र सिंह	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61738	तशजीत सिंह दुग्गल	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61739	विष्णु रंगरॉव मोरे	ए ई सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61741	हरप्रीत सिंह मनचंदा	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61742	विनीत कुमार	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61743	निर्भय गौतम	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61744	अनिल झिञ्जोरिया	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61746	अमित कुमार महादेव अस्वाल	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61747	अनुराग प्रकाश	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61749	समीर मधाल	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61752	बिदेश रंजन दासगुप्ता	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61753	दलिप सिंह	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61754	गगनदीप गोगिया	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61755	सुधीर कुमार सिंह	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61756	आशीष बाजपई	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61757	अरुण बेलवाल	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61759	अवरा ज्योति भट्टाचार्य	ई एम ई	08 दिसम्बर 14

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विसिज	लै. कर्नल दिनांक से
आई सी 61760	कुलदीप सिंह	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61761	अभिषेक सिंह गौतम	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61762	ऋषि महाजन	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61763	दीपक बसकंदी	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61765	अतिन टंडन	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61767	एस प्रवीन बाबू	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61768	मिधुन मुरलीधरन	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61769	उदित कौशल	ए ए डी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61770	हरी राम ओझा	ए ई सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61771	मनोज पटानिया	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61772	हर्ष कुमार झा	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61773	यशवंत सिंह रानावत	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61774	रोहिताश कुमार श्योरन	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61775	मनीश पुनेथा	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61776	लेविश रोहन जोशफ रोबर्ट	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61777	समीर सिंह कुशवाहा	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61778	पंकज सिरौही	ए ओ सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61779	धीरज कुमार	सिग्नल्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61780	अजय भारद्वाज	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61782	विनीत कमल गुप्ता	सिग्नल्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61783	देवेश वाही	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61784	धीरज कुमार त्यागी	ए ओ सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61785	सिंधे सचिन बाबाजी	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61786	रविंद्रा सिंह	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61787	नवीन मसीह	मेक इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61788	कुमार शिवम दुबे	सिग्नल्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61789	नोंगमईथम प्रीतिकुमार सिंह	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61790	समीर लाम्बा	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61791	अमलम चतुर्वेदी	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61792	रितेश कोहली	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61793	मानव शर्मा	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61794	संदीप कुमार	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61795	अमित त्रिपाठी	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विसिज	लै. कर्नल दिनांक से
आई सी 61796	मुकेश कुमार वर्मा	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61797	अनंजे सलदन्हा	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61798	सभ्यासाक्षी दास	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61799	भुपेन्द्र	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61800	गौरव सिंह	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61801	अभिनव वशिष्ठ	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61802	विजय रावत	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61803	विशाल शर्मा	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61805	विजय राणा	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61806	के एस एच महेश्वर सिंह	ए ए डी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61807	सावंत संग्राम अनिल	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61808	चाप सिंह गहलावत	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61809	पीयूष बिष्ट	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61810	संजीव कुमार	सिग्नलस	08 दिसम्बर 14
आई सी 61811	सत्येन्द्रा सिंह भोज	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61812	प्रशांत वेल्युधन	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61813	अभिषेक खन्ना	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61814	नवीन चन्द्र जोशी	मेक इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61815	नरेन्द्र पाल	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61817	नीतिन खजूरिया	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61818	कुलविंदर सिंह मुल्तानी	ए ओ सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61819	पीयुष शर्मा	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61821	राहुल मोदगिल	सिग्नलस	08 दिसम्बर 14
आई सी 61822	आशीष कश्यप	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61823	कोस्तुब दासगुप्ता	मेक इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61824	के के प्रेमदीप	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61825	सौरभ तिवारी	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61826	रोहित प्रकाश रॉय	सिग्नलस	08 दिसम्बर 14
आई सी 61827	मनीष चेतरी	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61828	विशाल शरन	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61829	सुमित पंत	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61831	रविंदर सिंह नेगी	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61832	बिजेन्द्र सिंह	ए एस सी	08 दिसम्बर 14

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विसिज	लै. कर्नल दिनांक से
आई सी 61834	विक्रान्त मेहता	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61835	प्रवीन जनार्दन हरीदास	सिग्नलस	08 दिसम्बर 14
आई सी 61836	गौरव कपिला	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61837	प्रवीन कुमार	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61838	गर्गा दास	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61839	रूपेन्द्र जीत सिंह	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61841	ऋषि भनोट	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61842	रोहित झा	ए ए डी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61843	अमनप्रीत सिंह गिल	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61845	लांगोलजम सुनिंदरो सिंह	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61846	परितोष मित्तल	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61847	सतीश कुमार	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61848	सुरेन्द्र कुमार कोंतय	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61849	कुंवर शैलेंद्र सिंह	ए ओ सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61851	सुमित शर्मा	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61852	आर जगथ नारायन	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61854	मनीश बिष्ट	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61855	संदीप दत्ता	मेक इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61856	सोमबीर सिंह लांबा	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61857	मुनु शुक्ला	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61858	विपिन प्रधान	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61859	अनुराग तिवारी	ए ए डी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61860	अमित त्योतिया	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61861	विक्रम बिष्ट	इंट	08 दिसम्बर 14
आई सी 61863	मुकेश शर्मा	सिग्नलस	08 दिसम्बर 14
आई सी 61864	गगन शर्मा	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61865	पंकज सैनी	इंट	08 दिसम्बर 14
आई सी 61866	मनोज कुमार पंडित	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61867	मुकेश कुमार	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61868	प्रहलाद राणा	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61869	उज्ज्वल पांचाल	सिग्नलस	08 दिसम्बर 14
आई सी 61871	कुनाल मुकरजिया	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61872	समीर गुंथ	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विसिज	लै. कर्नल दिनांक से
आई सी 61873	तरनजीत सिंह	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61875	शशि गोपाल उपाध्याय	ए ए डी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61876	शैलेंद्र कुमार सिंह	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61877	शिवाकुमार	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61878	विरम पाल	मेक इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61880	जेकब फिलिप	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61883	रोहित मेनन	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61884	देशविंदर सिंह आलुवालिया	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61885	अज्ञात मनु	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61886	रचित साहनी	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61888	हिम्मत सिंह ब्रायच	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61889	हिमांशु अरोडा	ए ओ सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61891	राज कुमार सिंह सेंगर	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61892	दीपक कुमार	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61893	इंदर कुमार गोस्वामी	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61894	महेश सूर्यनारायणन	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61897	अरविंद राजहंस	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61899	शैलेंद्र कुमार धीर	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61900	मृदुल कांति सिंहा	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61901	सुमित कुमार मुंशी	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61902	श्रीकुमार	ई एम ई	08 दिसम्बर 14
आई सी 61903	शशांक त्रिपाठी	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61904	विजय सिंह रावत	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61905	ए जैड सिद्धिकी	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61906	संपत कुमार	ए ओ सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61908	विक्रमादित्य सिंह पाल	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61910	मनीष तिवारी	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61911	शोमी शरन भटनागर	सिग्नल्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61913	मयंक गोयल	ए ए डी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61914	जी वी रमेश कुमार	इंट	08 दिसम्बर 14
आई सी 61915	नागेश डोडियाल	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61916	मुनीश शर्मा	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61919	सुरेश चन्द रमोला	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विसिज	लै. कर्नल दिनांक से
आई सी 61920	डी वी एन रमाकांत	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61921	दीलिप नंदन अग्निहोत्री	मेक इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61922	नीरज गुप्ता	ए सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61923	सिद्धार्थ उपाध्याय	सिग्नलस	08 दिसम्बर 14
आई सी 61924	रुचिर पांडे	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61927	शलभ पुलस्त्या	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61928	रविन्द्रा कुमार पात्रो	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61929	राजेश कुमार	ए एस सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61931	राजुल श्रीवास्तवा	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61933	पी वी वी एस सुधीर कुमार	सिग्नल्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61939	सोरव बैनर्जी	ए ओ सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61940	शोर्य वर्धन	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61942	हर अगम पाल सिंह	आर्टी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61943	मउलिन बी मारथक	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61945	बीजुमोनी कोंवर	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61946	नीतिन तिवारी	ए वी एन	08 दिसम्बर 14
आई सी 61950	राहुल सक्सेना	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61952	अनुपम रॉय	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61953	अखिलेश कुमार पाल	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 14
आई सी 61955	सोरव कुमार भट्टाचार्य	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 14
आई सी 61968	अमित डागर	ए ई सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61987	दीप सिंह महालावत	ए ई सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 61999	अरविंद कुमार नोटियाल	ए ई सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 62000	धीरेन्द्र कुमार	ए ई सी	08 दिसम्बर 14
आई सी 63724	अनुराग शर्मा	सिग्नलस	13 दिसम्बर 14
आई सी 63725	उमाशंकर	इंजीनियर्स	13 दिसम्बर 14
आई सी 63726	कंवरजीत सिंह	सिग्नलस	13 दिसम्बर 14
आई सी 63727	आशिष शोरेन	ए ए डी	13 दिसम्बर 14
आई सी 63729	हरिंदर सिंह सुहाग	आर्टी	13 दिसम्बर 14
आई सी 63730	विकास सिंह राणा	ई एम ई	13 दिसम्बर 14
आई सी 63732	संजय कुमार पांडे	ए ए डी	13 दिसम्बर 14
आई सी 63733	अभिषेक कुमार श्रीवास्तव	ए ए डी	13 दिसम्बर 14
आई सी 63735	रवि किरण तोमर	इंजीनियर्स	13 दिसम्बर 14

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विसिज	लै. कर्नल दिनांक से
आई सी 63737	सी सैन्थिल कुमारन	सिग्नल्स	13 दिसम्बर 14
आई सी 63738	विजय धनखड	इंजीनियर्स	13 दिसम्बर 14
आई सी 63739	कुदाले अमित श्रीकांत	ई एम ई	13 दिसम्बर 14
आई सी 63740	राघवेन्द्र अग्रवाल	इंट	13 दिसम्बर 14
आई सी 63741	मनीष	इंजीनियर्स	13 दिसम्बर 14
आई सी 63742	देवेन दत्ता	ए ए डी	13 दिसम्बर 14
आई सी 63744	वैधव सिंह निर्बन	इंजीनियर्स	13 दिसम्बर 14
आई सी 63746	मयंक सोनी	ई एम ई	13 दिसम्बर 14
आई सी 63747	सुनील गहलोत	इंजीनियर्स	13 दिसम्बर 14
आई सी 63748	अनुप वी पिल्लई	ए ए डी	13 दिसम्बर 14
आई सी 63749	हरीश कुमार स्पोलिया	ए सी	13 दिसम्बर 14
आई सी 63750	दलीपार्ती श्रीकांत	इंजीनियर्स	13 दिसम्बर 14
आई सी 63752	पी रादविप आर वी	सिग्नल्स	13 दिसम्बर 14
आई सी 63753	अभिषेक कुमार	ए ए डी	13 दिसम्बर 14
आई सी 63755	अंगशुमन चक्रवर्ती	सिग्नल्स	13 दिसम्बर 14
आई सी 63756	सुरेश नारायण त्रिपाठी	ए ए डी	13 दिसम्बर 14
आई सी 63758	सिद्धार्थ आचार्य	आर्टी	13 दिसम्बर 14
आई सी 63760	बसव राज	ई एम ई	13 दिसम्बर 14
आई सी - 61525	अंशु गुप्ता	ई एम ई	08 दिसम्बर 2014
आई सी - 61949	प्रमोद कांडीयाल	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 2014
आई सी - 61682	मैहक शेनगुप्ता	आर्टी	08 दिसम्बर 2014
आई सी - 61685	सुचित आर	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 2014

आई सी - 61994	सुशील कुमार चवन	इंफैंट्री
---------------	-----------------	-----------

—08 दिसम्बर 2014

63277	राजिंदर सिंह	इंजीनियर्स
-------	--------------	------------

—14 जून 2014

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विसिज	लै. कर्नल दिनांक से
64934	त्रिलोक सिंह मेहरा	ए एस सी	04 नवम्बर 14
64935	प्रदीप चौधरी	आर्टी	04 नवम्बर 14
64936	मनीष शेनबार	इंफैंट्री	04 नवम्बर 14
64937	शशांक शर्मा	आर्टी	04 नवम्बर 14
64939	जन्मेजे मिश्रा	इंफैंट्री	04 नवम्बर 14
64940	शोरोन्त योगवीर सिंह कृष्णा कुमार	ए ओ सी	04 नवम्बर 14
64941	आशीष कुमार दुबे	आर्टी	04 नवम्बर 14
64942	बी टी रमैय्या	सिग्नल्स	04 नवम्बर 14

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विसिज	लै. कर्नल दिनांक से
64943	सरकार अभिजीत विश्वानाथ	ए ए डी	04 नवम्बर 14
65151	प्रवीण कुमार	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65152	सिद्धार्थ पंत	मेक इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65153	मेनन सुरेश सुकुमारन	इंट	03 नवम्बर 14
65154	अमरजीत सिंह	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65155	मनदीप सिंह	आर्टी	03 नवम्बर 14
65156	प्रत्युश गौतम	ए ओ सी	03 नवम्बर 14
65157	शमीर तमाहन्कर	आर्टी	03 नवम्बर 14
65158	धरमवीर सिंह	ए बी एन	03 नवम्बर 14
65159	शैलेन्द्र सिंह	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65160	नायर जितेन्द्रा वी	ए एस सी	03 नवम्बर 14
65161	अनुप चक्रबोर्ती	इंट	03 नवम्बर 14
65163	लोकेश कुमार वर्मा	इंजीनियर्स	03 नवम्बर 14
65164	लोकेश जोशी	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65165	रोहित वर्मा	आर्टी	03 नवम्बर 14
65166	जयन्त सिंह	ए एस सी	03 नवम्बर 14
65167	नंगलिप्पम बुद्धिमंता सिंह	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65168	सुधीर परमार	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65169	विजय उनियाल	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65170	राहुल सीकुएरा	ए ओ सी	03 नवम्बर 14
65171	राजेश पराशर	ई एम ई	03 नवम्बर 14
65172	सुरवीर दयोरा	ए एस सी	03 नवम्बर 14
65173	मनीष गुप्ता	ए सी	03 नवम्बर 14
65174	अविनाश कुमार	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65175	कुनाल भटनागर	ए ओ सी	03 नवम्बर 14
65176	अभिजीत नायर	आर्टी	03 नवम्बर 14
65177	नीतिन कुमार सिंह	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65179	राहुल सिंह	इंजीनियर्स	03 नवम्बर 14
65180	प्रीत सिंह	इंजीनियर्स	03 नवम्बर 14
65181	अतुल राज सिंह	ए एस सी	03 नवम्बर 14
65182	राहुल बडोला	ए ए डी	03 नवम्बर 14
65183	नीखिल पेंडारकर	ए सी	03 नवम्बर 14
65184	प्रभु रामदास वामन	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विसिज	लै. कर्नल दिनांक से
65185	जयपाल सिंह	इंजीनियर्स	03 नवम्बर 14
65186	पविंदर सिंह	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65187	अशोक सिंह चौहान	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65188	आनंद झा	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65189	तरुण कुमार	आर्टी	03 नवम्बर 14
65191	राहुल पंवार	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65192	हरमिंदर सिंह	आर्टी	03 नवम्बर 14
65193	राजेश कुमार झिंगिया	मेक इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65194	आर के विक्रम	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65196	कलेश के रमन	इंजीनियर्स	03 नवम्बर 14
65197	मुकेश	ए एस सी	03 नवम्बर 14
65198	अमनप्रीत सिंह	आर्टी	03 नवम्बर 14
65199	ईश्वर सिंह दहिया	आर्टी	03 नवम्बर 14
65200	राजिंदर सिंह	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65201	डॅनिस ऐंड्र्यू जोनसन	इंजीनियर्स	03 नवम्बर 14
65202	पंकज चौहान	आर्टी	03 नवम्बर 14
65204	अनिल कुमार शर्मा	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65205	ऋषि दुबे	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65207	शिवेंद्रा पाल सिंह रवई	आर्टी	03 नवम्बर 14
65208	रमेश डाबर	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65209	परम वीर सिंह जांवल	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65210	रण सिंह	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65211	अमित भारद्वाज	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65214	रिपन जैन	ए ओ सी	03 नवम्बर 14
65215	मौलिक चंदर	आर्टी	03 नवम्बर 14
65216	पुजारी धिरज एस	मेक इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65218	नीखिल कुमार	ए ओ सी	03 नवम्बर 14
65219	शैलेन्द्रा सिंह	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65220	जीवन बी	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65221	अहमेर इकबाल	आर्टी	03 नवम्बर 14
65222	सुरज प्रकाश दास	आर्टी	03 नवम्बर 14
65223	शिबु एस एल	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65225	सुधांशु गुप्ता	ए एस सी	03 नवम्बर 14

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विसिज	लै. कर्नल दिनांक से
65226	सितेन्द्रा सिंह	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65228	धिरेन्द्र सिंह	आर्टी	03 नवम्बर 14
65229	रोहित गांगुली	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65230	गोपाल सोनी	आर्टी	03 नवम्बर 14
65231	सुशांत कुमार झा	इंजीनियर्स	03 नवम्बर 14
65232	प्रशांत सिंह	आर्टी	03 नवम्बर 14
65233	आनंद कुमार	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65235	आदित्य कुमार देवरानी	आर्टी	03 नवम्बर 14
65236	भुषिंदर सिंह	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65238	हिसनम प्रितम सिंह	आर्टी	03 नवम्बर 14
65240	कुमुद मैनी	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65241	पी एस प्रसन्ना	ए सी	03 नवम्बर 14
65242	अमित जोन कोनटिहो	आर्टी	03 नवम्बर 14
65243	रामेश्वर नाथ झा	ए ए डी	03 नवम्बर 14
65245	इमरान अहमद सिद्धिकी	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65246	बलवान सिंह	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65247	राहुल पाण्डये	ए एस सी	03 नवम्बर 14
65248	विवेक सिंह	ए ए डी	03 नवम्बर 14
65249	मुकुंद गुरुराज	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65250	त्रिभुवन पंत	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65251	हरिओम सिंह भंडारी	ई एम ई	03 नवम्बर 14
65252	करन बीर साही	आर्टी	03 नवम्बर 14
65254	चारूल शर्मा	ए सी	03 नवम्बर 14
65256	डी कोली	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65257	युवराज सिंह राठौर	इंट	03 नवम्बर 14
65258	रोहित थूल	ए ए डी	03 नवम्बर 14
65259	शैलेन्दर सिंह	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65263	कनिष्का	आर्टी	03 नवम्बर 14
65265	गौरव थापा	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65266	प्रतिम बैनर्जी	ए ओ सी	03 नवम्बर 14
65267	हर्ष गुसाईं	मेक इंफैंट्री	03 नवम्बर 14

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विसिज	लै. कर्नल दिनांक से
65268	इंदरजीत सिंह	इंफैंट्री	03 नवम्बर 14
65901	परवीत कुमार सिवाच	ई एम ई	06 नवम्बर 14
65902	सुपिंदर सिंह शेठी	इंजीनियर्स	06 नवम्बर 14
65904	विक्रम बिररा	ई एम ई	06 नवम्बर 14
65905	पवन यादव	ई एम ई	06 नवम्बर 14

आई सी-65203	रीमा सोबती	ए ई सी
-------------	------------	--------

—01 मार्च 2015

डब्ल्यू एस-00748	डी कोस्टा एलसी	इंजीनियर्स
------------------	----------------	------------

—08 सितम्बर 2014

कप्तान से मेजर

69577	अर्जुन ए	इंजीनियर्स	12 जून 2011
-------	----------	------------	-------------

अल्पकालीन सेवा कमीशन (डब्ल्यू एए ई एस)

कप्तान से मेजर

1440	भावना चौकसे	इंजीनियर्स	डब्ल्यू ई एस ओ -31 (एन टी)	22 मार्च 09	22 मार्च 15
1442	चेरियन सौम्या रचेल	ए ओ सी	डब्ल्यू ई एस ओ -31 (एन टी)	22 मार्च 09	22 मार्च 15
1447	भामा कपूर	ए ओ सी	डब्ल्यू ई एस ओ -31 (एन टी)	22 मार्च 09	22 मार्च 15
1448	रेवती पठानिया	ए एस सी	डब्ल्यू ई एस ओ -31 (एन टी)	22 मार्च 09	22 मार्च 15
1465	दीप्ती शर्मा	ए ओ सी	डब्ल्यू ई एस ओ -31 (एन टी)	22 मार्च 09	22 मार्च 15
1467	प्रियंका राठौर	ए ओ सी	डब्ल्यू ई एस ओ -31 (एन टी)	22 मार्च 09	22 मार्च 15
1488	ऋतम्भरा कोटियाल	इंट	डब्ल्यू ई एस ओ -31 (एन टी)	22 मार्च 09	22 मार्च 15
1500	पूनम थापा	ए ओ सी	डब्ल्यू ई एस ओ -31 (एन टी)	22 मार्च 09	22 मार्च 15
1509	रत्नदीप कौर नारंग	ए ओ सी	डब्ल्यू ई एस ओ -31 (एन टी)	22 मार्च 09	22 मार्च 15
1511	विष्णुप्रिया के	ए ओ सी	डब्ल्यू ई एस ओ -31 (एन टी)	22 मार्च 09	22 मार्च 15
1517	सुरजीत कौर	ए एस सी	डब्ल्यू ई एस ओ -31 (एन टी)	22 मार्च 09	22 मार्च 15
1527	छवी सक्सेना	ए एस सी	डब्ल्यू ई एस ओ -31 (एन टी)	22 मार्च 09	22 मार्च 15
1540	उषा कुमारी	इंजीनियर्स	डब्ल्यू ई एस ओ -31 (एन टी)	22 मार्च 09	22 मार्च 15

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (एस.एस.सी.डब्ल्यू.)

ले. से कप्तान

45501	प्रियंका बनसोड	सिग्नल्स	20 मार्च 11	एस.एस.सी.डब्ल्यू-07 (टी)	20 अप्रैल 11	20 अप्रैल 13
-------	----------------	----------	-------------	--------------------------	--------------	--------------

शंकर बसु
उप निदेशक
एम एस 8सी

सेना शाखा

सं. 189, दिनांक 17 जुलाई 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

कैप्टन के रैंक में

लै. विजय कुमार बेरिवाल	टीए-42756	(इन्जीनियर टीए)	02 अगस्त 2013
लै. रोहन योगेश साखरे	टीए-42757	(इन्जीनियर टीए)	02 अगस्त 2013
लै. सुधीर नंदा	टीए-42758	(इन्जीनियर टीए)	02 अगस्त 2013
लै. दीपक गुप्ता	टीए-42763	(इन्जीनियर टीए)	12 अप्रैल 2014
लै. राज कुमार पटेल	टीए-42776	(इन्जीनियर टीए)	23 दिसम्बर 2013

भारत भूषण जोशी
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 190, दिनांक 20 जुलाई 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियों/पदोन्नतियाँ करते हैं।

नियमित सेना

सेना आयुध कोर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मेजर	ऐ टी	पुरुशोथमन सीके	जेसी 724223एच	01 जनवरी 2015
सूबेदार मेजर	ऐ टी	सुनील कुमार दास	जेसी 724276एफ	01 फरवरी 2015
सूबेदार मेजर	वर्लक आई एम	सतवंत सिंह	जेसी 725888एल	01 जनवरी 2015
सूबेदार मेजर	वर्लक एस डी	महेन्द्र सिंह	जेसी 725915के	01 मार्च 2015
सूबेदार मेजर	वर्लक आई एम	उत्तम कुमार सिन्हा	जेसी 726317वाई	01 अप्रैल 2015
सूबेदार मेजर	एस के टी सिगनल	श्रीकांत पांडे	जेसी 726334वाई	01 फरवरी 2015
सूबेदार मेजर	एस के टी एम टी	एम राज कुमार	जेसी 724895पी	01 मार्च 2015
सूबेदार मेजर	एस के टी एम टी	अशोक कुमार	जेसी 724945पी	01 मार्च 2015
सूबेदार मेजर	एस के टी एम टी	राजेन्द्र प्रसाद सिंह	जेसी 724960के	01 मार्च 2015
सूबेदार मेजर	डाईवर एम टी	किशोर उपास राव लुटे	जेसी 728258डब्ल्यू	01 मार्च 2015

सूबेदार के रैंक में

सूबेदार	ऐटी	घन श्याम मल्लिक	जेसी 728148एफ	01 जनवरी 2015
सूबेदार	ऐटी	ए अरोकीया सामी	जेसी 728169एक्स	01 फरवरी 2015
सूबेदार	ऐटी	संजय कुमार साहू	जेसी 728220एम	01 फरवरी 2015
सूबेदार	ऐटी	पी जय कुमार	जेसी 728218पी	01 फरवरी 2015
सूबेदार	ऐटी	अजी मैथ्यू	जेसी 728323एल	01 फरवरी 2015

सूबेदार	ऐटी	एन विनोद	जेसी 728219एक्स	01 फरवरी 2015
सूबेदार	ऐटी	दर्शन सिंह	जेसी 728170एम	01 फरवरी 2015
सूबेदार	ऐटी	सुनील सी कुमार	जेसी 728217एम	01 फरवरी 2015
सूबेदार	ऐटी	मोहन सिंह	जेसी 728428पी	01 मार्च 2015
सूबेदार	ऐटी	रोशन लाल	जेसी 728324एन	01 मार्च 2015
सूबेदार	ऐटी	यशपाल सिंह	जेसी 728325डब्ल्यू	01 मार्च 2015
सूबेदार	ऐटी	संजय कुमार	जेसी 728326वाई	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	ऐटी	घाडी सुनिल साहादेव	जेसी 728327एफ	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	ऐटी	दौलत राम बेरवाल	जेसी 728328के	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	ऐटी	रावत बिरेन्द्र सिंह इन्द्र सिंह	जेसी 728329एम	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	ऐटी	धुर्वे अरुन राघोजी	जेसी 728330एफ	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	ऐटी	सथीसन के	जेसी 728454डब्ल्यू	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	ऐटी	जीवन कुमार	जेसी 728331के	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	ऐटी	तेज सिंह नथावत	जेसी 728332एम	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	ऐटी	सेथु महादेवन पी	जेसी 728333पी	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	ऐटी	पवार गणेश शंकर	जेसी 728334एक्स	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	क्लर्क एस डी	गुप्तेशवर नाथ सिंह	जेसी 729449एक्स	01 जनवरी 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	सांगले रामदास जगन्नाथ	जेसी 729641एफ	01 जनवरी 2015
सूबेदार	क्लर्क एस डी	मोहन लाल	जेसी 729619डब्ल्यू	01 जनवरी 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	तारार गोपाल दनयानोबा	जेसी 729686एफ	01 जनवरी 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	कृष्णा भारती	जेसी 729687के	01 जनवरी 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	एमएस अब्दुल रजाक	जेसी 729644पी	01 जनवरी 2015
सूबेदार	क्लर्क एस डी	रबिन्द्रा नाथ दास	जेसी 729645एक्स	01 जनवरी 2015
सूबेदार	क्लर्क एस डी	शैख इस्साक महेबूब	जेसी 729646ए	01 फरवरी 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	वेनु गोपालन नायर बी	जेसी 729688एम	01 फरवरी 2015
सूबेदार	क्लर्क एस डी	श्री राम प्रजापति	जेसी 729647एच	01 फरवरी 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	अनिल कुमार वी कारीकुजाई	जेसी 729648एल	01 फरवरी 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	शिव प्रकाश सिंह कुशवाहा	जेसी 729649एन	01 फरवरी 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	मुरलिधर साहू	जेसी 729650एच	01 फरवरी 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	रत्तन सिंह	जेसी 729651एल	01 फरवरी 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	राजेश कुमार	जेसी 729652एन	01 फरवरी 2015
सूबेदार	क्लर्क एस डी	विरेन्द्रा प्रताप	जेसी 729653डब्ल्यू	01 फरवरी 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	बिनोद कुमार मंडल	जेसी 729654वाई	01 फरवरी 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	पी मोहन दास	जेसी 729690के	01 फरवरी 2015
सूबेदार	क्लर्क एस डी	राम कुष्णा	जेसी 729655एफ	01 फरवरी 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	सी वेन्कटेश्वरा बाबू	जेसी 729656के	01 फरवरी 2015

सूबेदार	क्लर्क एस डी	हुकम सिंह	जेसी 729657एम	01 फरवरी 2015
सूबेदार	क्लर्क एस डी	धर्मपाल यादव	जेसी 729658पी	01 फरवरी 2015
सूबेदार	क्लर्क एस डी	ईश्वर सिंह	जेसी 729659एक्स	01 फरवरी 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	भामरे दीपक नामदेव	जेसी 730019ए	01 फरवरी 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	नाले विकास नामदेव	जेसी 729660एम	01 फरवरी 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	कुदाले महेन्द्र कुमार विटठल	जेसी 729661पी	01 मार्च 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	खिलारे हनुमान्त चांदु	जेसी 729662एक्स	01 मार्च 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	कश्मीर सिंह	जेसी 729693एक्स	01 मार्च 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	सवपन कुमार बर्मन	जेसी 729897के	01 मार्च 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	एपी सेकर	जेसी 729694ए	01 मार्च 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	नाहर सिंह	जेसी 729695एच	01 मार्च 2015
सूबेदार	क्लर्क एस डी	नवल किशोर सिंह	जेसी 729696एल	01 मार्च 2015
सूबेदार	क्लर्क एस डी	हरे राम तिवारी	जेसी 729697एन	01 मार्च 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	राम लुभाया	जेसी 729698डब्ल्यू	01 मार्च 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	शैलेन्द्र कुमार महुन्ता	जेसी 729699वाई	01 मार्च 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	राज कुमार सिंह	जेसी 729730ए	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	क्लर्क एस डी	सुदीश कुमार एम	जेसी 729701एल	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	क्लर्क एस डी	कुन्वर पाल	जेसी 729703डब्ल्यू	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	जगत सिंह मानोला	जेसी 729704वाई	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	पवार अनिल रंगा राव	जेसी 729705एफ	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	धन्ना राम	जेसी 729706के	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	सतनाम सिंह	जेसी 729707एम	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	काम्ब्ले नवनाथ दादु	जेसी 729708पी	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	अजाद सिंह	जेसी 729709एक्स	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	जितेन बोरा	जेसी 729710एम	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	एमडी जलालुद्दीन	जेसी 729731एच	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	शेकीर हुस्सैन	जेसी 729732एल	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	क्लर्क आइ एम	उत्तम सिंह यादव	जेसी 729733एन	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	सत्यावान	जेसी 729794एल	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस के टी सिगनल	उत्पल मंडल	जेसी 729812एच	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	सवपन कुमार बाला	जेसी 729878वाई	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस के टी वेपन	कृष्णन पी	जेसी 729880डब्ल्यू	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	अधीर कुमार बिस्वास	जेसी 730114एम	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	वायकर अरून बबन	जेसी 730133एक्स	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	मनोजीत कुमार धार	जेसी 730135एच	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	गोपाल रॉय	जेसी 730137एन	01 जनवरी 2015

सूबेदार	एस के टी वेपन	मनोज कुमार सिंह	जेसी 730199एन	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस के टी आम्बुनेशन	मलकित चन्द	जेसी 730200एक्स	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस के टी वेपन	सुनील कुमार सिंह	जेसी 730205डब्ल्यू	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	भूप सिंह	जेसी 730206वाई	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	थिरेन चन्द्र राय	जेसी 730207एफ	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस के टी सिगनल	अभ्य कुमार लेन्का	जेसी 730208के	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस के टी सिगनल	सफीकुल इसलम	जेसी 730209एम	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	दाल सिंगरपाल	जेसी 730210एफ	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	बिकांत पाल	जेसी 730211के	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस के टी आम्बुनेशन	देबा प्रसाद मंत्री	जेसी 730237एन	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एविएशन	धर्मन्द्र सिंह	जेसी 730213पी	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	अनिल आर	जेसी 730214एक्स	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	मदन यादव	जेसी 730215ए	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	साहब सिंह	जेसी 730216एच	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	महेश्वर नाथ राई	जेसी 730217एल	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	शेम्बरे नाना रामा	जेसी 730218एन	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	देशमुख संजय बालाकृष्णन	जेसी 730219डब्ल्यू	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	चोरात संजय महादेव	जेसी 730220एल	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	उत्तम सिंह	जेसी 730221एन	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	राजेन्द्र कमार यादव	जेसी 730222डब्ल्यू	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	देवेन्द्र सिंह	जेसी 730223वाई	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	रमेश चन्द	जेसी 730224एफ	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	गिरधर यादव	जेसी 730225के	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	बिधान भौवमीक	जेसी 730226एम	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	हेत राम	जेसी 730227पी	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	राजेन्द्र कुमार	जेसी 730228एक्स	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	हरबीर सिंह	जेसी 730229ए	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी आम्बुनेशन	मेघराज	जेसी 730230पी	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी आम्बुनेशन	सुशंत बिस्वास	जेसी 730231एक्स	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	धनाजय चक्रवर्ती	जेसी 730232ए	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी सिगनल	सतीश कुमार	जेसी 730233एच	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	अशोकन एएम	जेसी 730234एल	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	के वेन्कटा रमना	जेसी 730241एफ	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	ललित कुमार कर	जेसी 730281एच	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	सुरेन्द्र कुमार	जेसी 730282एल	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	सुरेन्द्र सिंह	जेसी 730440पी	01 फरवरी 2015

सूबेदार	एस के टी आम्बुनेशन	राज ऋशी	जेसी 730284डब्ल्यू	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	अरविन्द उपाध्याय	जेसी 730285वाई	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	कल्याण मलिक	जेसी 730286एफ	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	प्रकाश कुमार अधिकारी	जेसी 730341एम	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	सुरेन्द्र कुमार शर्मा	जेसी 730287के	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	जगपाल सिंह	जेसी 730376एच	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी आम्बुनेशन	भगवान सिंह	जेसी 730288एम	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	अधव राजाराम शाहाजी	जेसी 730242के	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	पदम सिंह	जेसी 730289पी	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	हरपाल सिंह	जेसी 730290के	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	निर्मल सिंह	जेसी 730291एम	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	मनोज कुमार रॉय	जेसी 730292पी	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी आम्बुनेशन	राम प्रसाद	जेसी 730293एक्स	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी आम्बुनेशन	राम भगत साहू	जेसी 730294ए	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	एम राजन कुमार सिंह	जेसी 730369एम	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	सुब्राना सिंगा	जेसी 730375ए	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी सिगनल	आनद जाधव	जेसी 730295एच	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी आम्बुनेशन	दीलीप सिंह	जेसी 730404के	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	विजय कुमार	जेसी 730296एल	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी सिगनल	बावा दत्ता सैनी	जेसी 730297एन	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	शिव सागर	जेसी 730298डब्ल्यू	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एविएशन	प्रहलाद राम	जेसी 730299वाई	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	नरेन्द्र सिंह	जेसी 730301एल	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	नरेन्द्र सिंह	जेसी 730302एन	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	करण सिंह	जेसी 730303डब्ल्यू	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	रेतना कुमार पीएन	जेसी 730243एम	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	सत्या प्रकाश सक्सेना	जेसी 730305एफ	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी आम्बुनेशन	राजू के	जेसी 730306के	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	जनार्धन चक्रवर्ती	जेसी 730307एम	01 मार्च 2015
सूबेदार	एस के टी आम्बुनेशन	यावारी गणपति	जेसी 7730244पी	01 मार्च 2015
सूबेदार	एस के टी आम्बुनेशन	विजय कुमार	जेसी 730405एम	01 मार्च 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	कदम सुर्याकांत तुकाराम	जेसी 730308पी	01 मार्च 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	प्रमिन्द्र सिंह	जेसी 730309एक्स	01 मार्च 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	जसबीर सिंह	जेसी 730311पी	01 मार्च 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	धर्म वीर	जेसी 730312एक्स	01 मार्च 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	कबराबाम दीना कुमार सिंह	जेसी 730314एच	01 मार्च 2015

सूबेदार	एस के टी एम टी	अनिल कुमार	जेसी 730315एल	01 मार्च 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	अतुल चन्द्र राय	जेसी 730316एन	01 मार्च 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	सुदर्शन प्रधान	जेसी 730317डब्ल्यू	01 मार्च 2015
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	अशोका कुमार जेना	जेसी 730318वाई	01 मार्च 2015
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	तरनी कांत सरकार	जेसी 730639डब्ल्यू	01 मार्च 2015
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	रघुबीर सिंह	जेसी 730342पी	01 मार्च 2015
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	जलवा खान	जेसी 730343एक्स	01 मार्च 2015
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	बजरंग लाल सैन	जेसी 730319एफ	01 मार्च 2015
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	तारा चन्द सैनी	जेसी 730320डब्ल्यू	01 मार्च 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	प्रदीप कुमार प्रधान	जेसी 730321वाई	01 मार्च 2015
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	भवानी सिंह शेखावत	जेसी 730322एफ	01 मार्च 2015
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	गोविन्द प्रसाद जाट	जेसी 730245एक्स	01 मार्च 2015
सूबेदार	एस के टी सिगनल	प्रवेश कुमार पातरा	जेसी 730344ए	01 मार्च 2015
सूबेदार	एस के टी जी सिगनल	ओम प्रकाश	जेसी 730324एम	01 मार्च 2015
सूबेदार	एस के टी जी सिगनल	तारा चन्द	जेसी 730325पी	01 मार्च 2015
सूबेदार	एस के टी जी अम्युनेशन	शिवेन्द्र सिंह	जेसी 730246पी	01 मार्च 2015
सूबेदार	एस के टी जी एम टी	बलबीर सिंह	जेसी 730326एक्स	01 मार्च 2015
सूबेदार	एस के टी जी सिगनल	रामा कृष्णा कर	जेसी 730327ए	01 मार्च 2015
सूबेदार	एस के टी जी वेपन	मनोज कुमार	जेसी 730328एच	01 मार्च 2015
सूबेदार	एस के टी जी एम टी	प्रफूला बारीक	जेसी 730329एल	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	अम्बीका प्रसाद द्विवेदी	जेसी 730330ए	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	लाडेकर राजेश कुमार कृष्णाजी	जेसी 730331एच	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	कदम शिवाजी गणपति	जेसी 730332एल	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	जोगेसवर प्रधान	जेसी 730334डब्ल्यू	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	तपन कुमार प्रधान	जेसी 730335वाई	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	प्रीतम सिंह	जेसी 730336एफ	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	निताई चन्द्र महन्ता	जेसी 730370एफ	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	श्यामल कुमार घोष	जेसी 730337एक्स	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	समीर कान्त बिसवास	जेसी 730338एम	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	सफीकुल मलित्या	जेसी 730339पी	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	जीमरूल इसलम	जेसी 730340के	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	एस के टी एम टी	राबी नारायण धाल	जेसी 730387एक्स	01 अप्रैल 2015

सूबेदार	एस के टी एम टी	मानी शंकर यादव	जेसी 730388एक्स	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	एस एच जी डी	ओमेश चन्द्र	जेसी 729805एम	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस एच जी डी	रामेश कुमार	जेसी 729930डब्ल्यू	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस एच जी डी	अदया प्रसाद यादव	जेसी 730049एक्स	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस एच जी डी	शिव चन्द्र झा	जेसी 730052एक्स	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस एच जी डी	अजयन सी	जेसी 730053ए	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस एच जी डी	उदय नारायण सिंह यादव	जेसी 730025एन	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस एच जी डी	विपीन गिरी	जेसी 730093एफ	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस एच जी डी	गम्भीर सिंह रावत	जेसी 730094के	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस एच जी डी	देवेन्द्र कुमार मंडल	जेसी 730144के	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस एच जी डी	अशोक कुमार गुर्जर	जेसी 730095एम	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	एस एच जी डी	कोकिली गाडा राजा राव	जेसी 730096पी	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	एस एच जी डी	केती राज शेखर राव	जेसी 730097एक्स	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	एस एच जी डी	मनी मरण एन	जेसी 730098ए	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	एस एच जी डी	सेलेन्द्र कुमार	जेसी 730108वाई	01 अप्रैल 2015
सूबेदार	एस एच टी	नन्दु चौधरी	जेसी 729950के	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस एच टी	जसबीर सिंह	जेसी 729993वाई	01 जनवरी 2015
सूबेदार	एस एच टी	कमलेश प्रसाद पांडे	जेसी 729994एफ	01 फरवरी 2015
सूबेदार	एस एच टी	उमेश कुमार सिंह	जेसी 729995के	01 फरवरी 2015
सूबेदार	डाईवर एम टी	साबु मैथव	जेसी 730035एक्स	01 जनवरी 2015
सूबेदार	डाईवर एम टी	विजय सिंह	जेसी 730092वाई	01 जनवरी 2015
सूबेदार	डाईवर एम टी	चन्द्रन एम	जेसी 730398एफ	01 जनवरी 2015
सूबेदार	डाईवर एम टी	वी वेन्कटेश्वरलू	जेसी 730433वाई	01 जनवरी 2015
सूबेदार	आर्टिशन डब्ल्यू डब्ल्यू	पंचाल दाहय भाई मोती भाई	जेसी 730636एच	01 मार्च 2015

विशेष सूची

कवचित कोर

स्थायी रिसालदार मेजर धर्मशिक्षक के रैंक में

रिसालदार
(पंडित)

राजेन्द्र प्रसाद तिवारी

(जेसी-226906एम)

01 सितम्बर 2014

स्थायी रिसालदार धर्मशिक्षक के रैंक में

नायब रिसालदार (ग्रंथी)	पलविन्दर सिंह	(जेसी-240217डब्ल्यू)	*02 जून 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)			

नायब रिसालदार (पंडित)	विनोद कुमार पटेरिया	(जेसी-240218वाई)	01 जून 2014
--------------------------	---------------------	------------------	-------------

स्थायी नायब रिसालदार धर्मशिक्षक के रैंक में

रघु नंदन	(जेसी-246643ए)	27 सितम्बर 2014
जितेंद्र कुमार दधिच	(जेसी-246645एल)	27 सितम्बर 2014
रतनेश पाण्डे	(जेसी-246646एन)	27 सितम्बर 2014

राजीव जौहरी
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 191, दिनांक 21 जुलाई 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सेवानिवृत्त होने पर अपना रैंक बनाये रखने और वर्दी पहनने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

सेवानिवृत्त

लै. कर्नल एस के बरवे टीए-42135 (इंजीनियर टीए) 31 दिसम्बर 2014 (अप0)

भारत भूषण जोशी
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 192, दिनांक 22 जुलाई 2015

शुद्धी-पत्र

भारत के राजपत्र में दिनांक 02 फरवरी 12 को शीर्षक "नियमित सेना स्थाई कमीशन" एव उप शीर्षक "कप्तान से मेजर" के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित अधिकारी के नाम को निरस्त किया जाता है :-

आई सी - 69577 अर्जुन ए, इंजीनियर्स

शंकर बोस
उप निदेशक
एम एस 8सी

MINISTRY OF DEFENCE
New Delhi, the 8th August 2015
INTEGRATED HQs OF MOD (ARMY)
(MILITARY ENGINEER SERVICES)

No. 185, dated 13th July 2015—The President is pleased to appoint the following officers as the designation showed before their name from the date as mentioned against their name :-

Sr No.	MES No	Rank	Name (Shri / Smt / Ms)	Date
1.	NYA	AEE B/R	Zahid Parvez	27 Feb 2012 (FN)
2.	486841	AEE (QS&C)	Anand	18 Jan 2012 (FN)
3.	486842	AEE B/R	Md Anwar	10 Feb 2012 (FN)
4.	300466	AEE B/R	Naveen Singla	07 May 2011 (FN)
5.	300467	AEE B/R	Mohit Goel	06 May 2011 (FN)
6.	NYA	AEE B/R	Amit Kumar Parmar	19 Sep 2011 (FN)
7.	NYA	AEE E/M	Prashant Shivhare	20 Sep 2011 (FN)
8.	NYA	AEE B/R	Rajiv Ranjan	15 Nov 2012 (FN)
9.	NYA	AEE B/R	Rohit	19 Dec 2012 (FN)
10.	486847	AEE B/R	Niranjan Lal	28 Dec 2012 (AN)
11.	607779	AEE E/M	Chavan Sachin Hiraman	10 Jul 2013 (F/N)
12.	NYA	AEE B/R	Vijay Nehra	24 Dec 2014 (FN)
13.	NYA	AEE B/R	Himanshu Makkar	19 Jan 2015 (FN)
14.	NYA	AEE B/R	Krishna Nandan Kumar	08 Jun 2013 (FN)
15.	300476	AEE B/R	Anshul Bansal	14 Mar 2013 (FN)
16.	300478	AEE B/R	Vishal Gupta	18 Apr 2013 (FN)
17.	300477	AEE E/M	Lokesh Goyal	14 Mar 2013 (FN)
18.	NYA	AEE E/M	Anurag Kumar Gupta	21 Jun 2013 (FN)
19.	300474	AEE B/R	Azmat Arshi	04 Feb 2013 (FN)
20.	125408	AEE B/R	R Suresh Balaji	14 Mar 2013 (FN)
21.	486844	AEE B/R	Rajesh Kumar Barnwal	08 Oct 2012 (FN)
22.	NYA	AEE B/R	Abhishek Gupta	14 Mar 2013 (FN)
23.	NYA	AEE B/R	Mohan Singh Yadav	14 Mar 2013 (FN)
24.	NYA	AEE B/R	Ashish Ranjan Sinha	14 Mar 2013 (FN)
25.	NYA	AEE B/R	Nandan Kumar	14 Mar 2013 (FN)
26.	NYA	AEE B/R	Sohit Kumar Verma	15 Mar 2013 (FN)
27.	194057	AEE E/M	Yogesh Kumar Parley	26 Mar 2012 (FN)
28.	314299	AE(Contract)	Surender Kumar	25 Jan 2012 (FN)
29.	170454	AE E/M	MVR Reddy	30 May 2011 (FN)

30.	208349	AE E/M	Barun Das	06 Aug 2009 (FN)
31.	154173	AE E/M	Dipak Kumar Pal	02 Feb 2009 (FN)
32.	196193	AE (Civ)	B Sudhakara Rao	23 Jul 2011 (FN)
33.	137802	AE (Civ)	VG Muraleedharan	25 Jul 2011 (FN)
34.	170446	AE (Civ)	P D Girame	23 Jul 2011 (FN)
35.	187893	AE (Civ)	Sajitha VA	31 Dec 2011 (FN)
36.	448625	AE E/M	Ashok Kumar Pathak	30 May 2011 (FN)
37.	510014	AE (Civ)	Mangal Singh Melgandi	16 Jan 2012 (FN)
38.	170403	AE (QS&C)	Bagwan Bhikan Babubhai	25 Jan 2012 (AN)
39.	171156	AE (QS&C)	Mukund Govind Mudgal	25 Jan 2012 (AN)
40.	314367	AE (QS&C)	Rajneesh Kumar	24 Jan 2012 (FN)
41.	234778	AE (Civ)	Jogen Chandra Rabha	31 Dec 2011 (FN)
42.	192825	AE E/M	Jagjeet Singh	30 May 2011 (FN)
43.	264677	AE (QS&C)	Subhash Barman	14 Feb 2011 (FN)
44.	123543	AE (Civ)	R Dhananjaya	25 Jul 2011 (FN)
45.	187892	AE (Civ)	Smt K A Lissy	25 Jul 2011 (FN)
46.	149547	AE (Civ)	Parathuvayalil Yacob Baby	23 Jul 2011 (FN)
47.	421457	AE (Civ)	Surya Prakash Agarwal	23 Jul 2011 (FN)
48.	189710	AE (Civ)	Ch Venkata Ramana	03 Jan 2012 (FN)
49.	111721	AE E/M	Sunil Prbhakar Rao Chalse	25 Jul 2009 (FN)
50.	462181	AE (Civ)	Rajiv Kumar Rajvanshi	23 Jul 2011 (FN)
51.	134984	AE (Civ)	K Sampath Kumar	23 Jul 2011 (FN)
52.	137801	AE (Civ)	V Abdussamad	25 Jul 2011 (FN)
53.	123499	AE E/M	Chandra Bhan	25 Jul 2009 (FN)
54.	205175	AE E/M	Madan Mohan Siddhanta	31 May 2011 (FN)
55.	314245	AE (QS&C)	Jasbir Singh	24 Jan 2012 (FN)
56.	117134	AE (Civ)	P V Vala	31 Oct 2011 (FN)
57.	126905	AE E/M	T V Nammalvar	11 May 2005 (FN)
58.	137814	AE (Civ)	C.T. Sudhakaran	25 Jul 2011 (FN)
59.	142006	AE (Civ)	AV Prabhakar	25 Jul 2011 (FN)
60.	180785	AE (Civ)	N. Krishnan	02 Jan 2012 (FN)
61.	187621	AE (Civ)	Rajenthieren. N	23 Jul 2011 (FN)
62.	187043	AE B/R	Smt Vijayalakshmy N	31 Dec 2011 (FN)
63.	136909	AE (Civ)	S Ramu	02 Jan 2012 (FN)
64.	447895	AE E/M	Santhosh Kumar Joshi	11 Jul 2005 (FN)

65.	170478	AE (Civ)	R J Shinde	15 May 2013 (FN)
66.	156354	AE (Civ)	Jai Bhagwan	27 Jun 2013 (FN)
67.	204988	AE E/M	Prodip Kumar Dutta	23 May 2012 (FN)
68.	247030	AE E/M	Amit Kumar Das	01 Nov 2012 (FN)
69.	315407	AE E/M	Yatinder Kumar	01 Feb 2013 (FN)
70.	239022	AE E/M	Raj Kishor Prasad	26 Oct 2012 (AN)
71.	315362	AE E/M	Ranjan Chaand	08 Feb 2013 (FN)
72.	316608	AE B/R	Lokesh Kumar Meena	26 Jun 2013 (FN)
73.	159076	AE E/M	Gopalkrishna Sidramappa Ambaldhage	24 May 2013 (FN)
74.	600778	AE E/M	Pramod Prabhakar Kulkarni	30 May 2011 (AN)
75.	113405	AE E/M	Shankarappa Mallappa Korabu	20 Apr 2012 (FN)
76.	187515	AE E/M	L Mahesh	20 Oct 2012 (FN)
77.	122815	AE E/M	Prakash Atmaram Mahajan	01 Aug 2012 (FN)
78.	600213	AE (QS&C)	Ankush Dattoba Pandhre	14 Feb 2011 (FN)
79.	117471	AE E/M	S M Patwa	23 Oct 2012 (FN)
80.	171402	AE (Civ)	V P Pavitaran	02 Jan 2012 (FN)
81.	123460	AE (Civ)	M K Tiwari	30 Mar 2005 (FN)
82.	170890	AE (Civ)	Shakil Ahmed	24 Jul 2009 (FN)
83.	208373	AE E/M	Subhas Sen Gupta	26 Oct 2012 (FN)
84.	NYA	BSO	Hemant Kumar	28 Oct 2009 (FN)
85.	188988	BSO	Smt Veena Hemant Kulkarni	27 May 2004 (FN)
86.	129551	BSO	Tamilarasu Ramasamy	03 Sep 2010 (FN)
87.	120087	BSO	C D Gangurde	24 Sep 2012 (FN)
88.	693086	BSO	Bhupendra M Jani	27 Sep 2014 (FN)
89.	269117	BSO	Mridul Saha	24 Sep 2014 (FN)
90.	602150	BSO	K Biju Kumar	24 Sep 2012 (FN)
91.	502190	BSO	Ashok Kumar	20 Apr 2013 (FN)
92.	422730	BSO	Vishal Gaurab	24 Sep 2012 (FN)
93.	121022	BSO	T C Chandrasekharan Nair	22 Sep 2012 (FN)
94.	127963	BSO	Sanjeev Kumar	21 Sep 2012 (FN)
95.	609404	BSO	Angad Tiwari	22 Sep 2012 (FN)
96.	480307	BSO	Ramesh Kumar Singh	24 Sep 2012 (FN)
97.	280600	BSO	Arvind Kumar Singh	24 Sep 2012 (FN)
98.	419946	SBSO	Pramod Kumar	30 Mar 2011 (FN)
99.	186009	SBSO	Kailash Chand Sharma	06 Apr 2011 (FN)

100.	175233	AO-I	Smt Pratibha Hemant Korad	21 Aug 2011 (FN)
101.	263301	AO-II	Smt Namita Mukhopadhyay	16 Jan 2012 (FN)
102.	169504	AO-II	T G Gopinathan Nair	11 Feb 2013 (FN)
103.	183503	AO-II	D Subbayya	28 Jul 2012 (FN)
104.	120634	AO-II	Smt Sulochana Vijay Nair	15 Feb 2013 (FN)
105.	312628	PS	Rukmani Devi	01 May 2012 (FN)
106.	312489	PS	Mahavir Parshad	27 Apr 2012 (FN)
107.	312761	PS	Raj Kumar	16 Aug 2012 (FN)
108.	312791	PS	Smt Manju Bhashni	20 Apr 2012 (FN)
109.	192186	PS	Purushothaman Pillai R	07 Feb 2013 (FN)

ANURAG SHARMA
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 186, dated 14th July 2015— The President is pleased to make the following appointment : -

TERRITORIAL ARMY

To be Lieutenant

Chandra Bahadur Yadava

TA-42966

(Engr TA)

24 Jan 2015

B.B. JOSHI
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 187, dated 15th July 2015—The President is pleased to make the following promotions: -

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Lt Col (& equiv) to be Col (& equiv)

KD Sodhi (MR-07147Y)	-	01-10-10, with notional seniority without effect on pay and pension from 06-09-10.
B Bhuyan (MR-06611L)	-	22-11-10, with notional seniority without effect on pay and pension from 11-09-10.
Raju Agarwal (MR-06020K)	-	01-12-10, with notional seniority without effect on pay and pension from 15-09-10.
JS Bhatia (MR-06025H)	-	01-12-10, with notional seniority without effect on pay and pension from 15-09-10.
MS Gill (MR-06028W)	-	01-12-10, with notional seniority without effect on pay and pension from 25-09-10.
AG Mathur (MR-06027N)	-	01-12-10, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-10-10.

Sameer Kumar (MR-06169L)	-	12-06-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-05-11
S Radhakrishnan (MR-06707N)	-	02-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 03-05-11
S Suresh Kumar, VSM (MR-06225Y)	-	12-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 04-05-11
M Chatterjee (MR-06226F)	-	12-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 07-05-11
A K Ghosh (MR-06227K)	-	12-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 22-05-11
Sourav Sen (MR-06229P)	-	12-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-06-11
D Mukherjee (MR-06230K)	-	12-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 24-06-11
P Deb (MR-06233X)	-	12-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 24-06-11
Alok Sen (MR-06236L)	-	12-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 27-06-11
Y S Sirohi (MR-06240N)	-	12-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-07-11
R Pakhetra (MR-06243F)	-	12-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 19-07-11
Yashpal Singh (MR-06244K)	-	12-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 19-07-11
Alok Bhalla (MR-06245M)	-	12-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-08-11
A Chandra (MR-06247X)	-	12-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-08-11
Ramprasad (MR-06249H)	-	12-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-08-11
Rakesh Verma (MR-06250X)	-	12-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-08-11
M A Parwaz (MR-06251A)	-	12-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 04-08-11
Anand Mishra (MR-06257F)	-	12-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 04-08-11
Jaswinder Singh (MR-06256Y)	-	12-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 11-08-11

Amul Kapoor (MR-06258K)	-	12-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 16-08-11
Rajat Jagani (MR-06259M)	-	12-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 19-08-11
Sukriti Baveja (MR-06260F)	-	12-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 23-08-11
P Talwar, VSM (MR-06262M)	-	12-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 29-08-11
R Nair (MR-06265A)	-	12-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-09-11
S Mansingh (MR-06269W)	-	12-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-09-11
S Bhalla (MR-06273Y)	-	12-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-09-11
S K Rode (MR-06280P)	-	12-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 07-09-11
N S Chhabra (MR-06283H)	-	12-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 12-09-11
K Mohana (MR-06722H)	-	19-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-10-11
Pankaj Sharma (MR-06274F)	-	20-12-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-10-11
Vijayakumar R (MR-07220M)	-	27-03-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 18-10-11
S Naskar (MR-07044A)	-	29-04-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 19-10-11
S Das (MR-06724N)	-	22-06-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 12-12-11

SURG CDR TO SURG CAPT (TIME SCALE)

MR-06465W (75443-K)	SURG CDR	MY DHARMAMER	08 NOV 2012
MR-05944L (75470-Y)	SURG CDR	RS MALLHI	01 DEC 2013
MR-06663A (75495-B)	SURG CDR	JOSEPH	22 APR 2014
MR-06138L (75475-H)	SURG CDR	GAGAN D BHANOT	03 JAN 2015

Surg Capt (& equiv) to be Surg Cmde (& equiv)

SK Sinha (MR-05396Y)(75372Z)	-	09-10-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 06-07-14.
---------------------------------	---	--

CS Naidu, VSM (MR-05133A)(75343H)	-	01-10-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 04-08-14.
A Sarin (MR-05296N)(75408F)	-	01-02-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-02-15.

DV SINGH
Brig
Dy DGAFMS

No. 188, dated 16th July 15—The President is pleased to make the following promotions:-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj To be Lt Col

IC-60541	GAGANDEEP SINGH CHIMNI	ARTY	09 Jun 2014
IC-60545	NAVAL JOSHI	ENGRS	09 Jun 2014
IC-60547	ASHISH UPRETI	ENGRS	09 Jun 2014
IC-60562	MANDAR JOGLEKAR	INF	09 Jun 2014
IC-60573	GAURAV RATHAUR	ARTY	09 Jun 2014
IC-60825	HARSH MISHRA	INF	09 Jun 2014

IC-60574	SANDEEP KUMAR	ASC	
----------	---------------	-----	--

—09 JUN 2014

IC-60665	SUNIL TAMANG	ARMY AVN	
----------	--------------	----------	--

—09 JUN 2014

IC-60751	GURMINDER SINGH	SIGS	
IC-60752	AMARJEET DAS	AAD	

—09 JUN 2014

IC-60924	VISHAL SHARMA	AOC	09 Jun 2014
IC-61001	HIMANSHU REDDY	ENGRS	09 Jun 2014
IC-61016	ATUL KATOCH	SIGS	09 Dec 2014

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
IC61329	PAWAN NEHRA	AC	08 Dec 14
IC61330	NAPOLEON NAYAK	AAD	08 Dec 14
IC61331	MUKUND BHARDWAJ	AAD	08 Dec 14

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
IC61332	AMOLJIT SINGH GILL	AC	08 Dec 14
IC61333	ABHINANDAN SARAPURE	ARTY	08 Dec 14
IC61334	GH HASSAN NATH	AAD	08 Dec 14
IC61335	AKSHAY KUMAR OHRI	ARTY	08 Dec 14
IC61336	TUSHAR JACOB ASIRVADAM	ARTY	08 Dec 14
IC61337	SIDDHARTH SINGH	AC	08 Dec 14
IC61338	PRASHANT KUKRETY	ASC	08 Dec 14
IC61339	ROHIT MUKHERJEE	MECH INF	08 Dec 14
IC61340	SHASHI BHUSHAN MISHRA	AOC	08 Dec 14
IC61341	SHIV NEEL GANGULY	ARTY	08 Dec 14
IC61342	SANJAY SINGH KARKI	INF	08 Dec 14
IC61343	AJAY SINGH	SIGS	08 Dec 14
IC61344	SHANTANU KUMAR	EME	08 Dec 14
IC61345	VARUN DIKSHIT	ENGRS	08 Dec 14
IC61346	NISHANT PARMAR	ASC	08 Dec 14
IC61347	MOHIT SINGH	INF	08 Dec 14
IC61348	PRADUMNA SINGH CHAND	ENGRS	08 Dec 14
IC61349	VIKAS PANDEY	ASC	08 Dec 14
IC61350	ANIMESH JHA	ARTY	08 Dec 14
IC61351	ADITYA PRATAP SINGH	ARTY	08 Dec 14
IC61352	SANTOSH KUMAR SINGH	M/ INF	08 Dec 14
IC61353	ASHISH KOIJAM	AC	08 Dec 14
IC61354	MILAN PATNAIK	SIGS	08 Dec 14
IC61355	GAURAV PANDEY	EME	08 Dec 14
IC61357	NECTAR SANJENBAM	INF	08 Dec 14
IC61358	SIDDARAMESH M RAMPUR	INF	08 Dec 14
IC61359	DHARMENDRA SINGH NEGI	INF	08 Dec 14
IC61361	AJAY PANDITA	INF	08 Dec 14
IC61362	PARVINDER SINGH	ARTY	08 Dec 14
IC61363	SANDEEP PRAKASH RAO	ARTY	08 Dec 14
IC61364	AJAY RAGHAV	INF	08 Dec 14
IC61365	JASJEET SINGH	ENGRS	08 Dec 14
IC61366	PRADEEP KUMAR GILL	INF	08 Dec 14
IC61367	SAURABH SAXENA	SIGS	08 Dec 14

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
IC61368	SUBHASIS GHOSH	ARTY	08 Dec 14
IC61369	ANOOP SINGH KHUTEL	SIGS	08 Dec 14
IC61370	D NAVIN BENJIT	INF	08 Dec 14
IC61371	RAJESH SHARMA	ENGRS	08 Dec 14
IC61372	HITENDER PARTI	INF	08 Dec 14
IC61373	RUPENDER MALHOTRA	EME	08 Dec 14
IC61375	MAINAK DEB	ARTY	08 Dec 14
IC61376	MOHIT MISHRA	INF	08 Dec 14
IC61377	YOGESH SINGH	INF	08 Dec 14
IC61378	BALJEET SINGH	M/INF	08 Dec 14
IC61379	DEEPAK TEWARI	EME	08 Dec 14
IC61380	C VIDYADHARAN	AC	08 Dec 14
IC61382	ASHISH LAL	AC	08 Dec 14
IC61383	NIPUN KRISHNAN	INF	08 Dec 14
IC61384	VINEET TALUJA	ARTY	08 Dec 14
IC61385	SUMEET KATTI	INF	08 Dec 14
IC61386	SHEKHAR ATTRI	INF	08 Dec 14
IC61388	NEERAJ NAITHANI	EME	08 Dec 14
IC61389	KEDAR MADHUKAR ARADHYE	INF	08 Dec 14
IC61391	PRADEEP SINGH MANHAS	SIGS	08 Dec 14
IC61392	V SRIHARI	ENGRS	08 Dec 14
IC61393	ANKUR VIKAS VAIDYA	AAD	08 Dec 14
IC61394	VIKRAM NEHRA	ASC	08 Dec 14
IC61395	GAGANDEEP SINGH NANDA	INF	08 Dec 14
IC61397	REXSON ROBERTSON	INF	08 Dec 14
IC61398	VISHAL KUMAR SINGH	INF	08 Dec 14
IC61399	ANIL MEHTA	AVN	08 Dec 14
IC61400	SANDBHORPRATEEK GANGADHAR	M/ INF	08 Dec 14
IC61401	SANJU MATHEW	INF	08 Dec 14
IC61402	SAMARJIT RAY	INF	08 Dec 14
IC61403	APRATIM SHARMA	AAD	08 Dec 14
IC61404	JATINDER SINGH RANDHAWA	SIGS	08 Dec 14
IC 61405	AMIT KUMAR	ASC	08 Dec 14
IC 61406	PRITAM RAWOOL	ENGRS	08 Dec 14

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
IC61407	HARIM RAKESH THAKUR	ENGRS	08 Dec 14
IC61408	ABHISHEK CHAWLA	ARMY AVN	08 Dec 14
IC61409	SHAILESH KUMAR ROY	INF	08 Dec 14
IC61411	SUTIRTHO ROY	ARTY	08 Dec 14
IC61412	R VISHNU SHANKAR	ARTY	08 Dec 14
IC61413	KASHYAP THAKKER	INF	08 Dec 14
IC61414	SWAROOP SINGH KUNTAL	EME	08 Dec 14
IC61415	AJAY KUMAR	INF	08 Dec 14
IC61416	SUKHJINDER PAUL SINGH	INF	08 Dec 14
IC61418	M SANJEEV	INF	08 Dec 14
IC61419	ASHISH KUMAR	AOC	08 Dec 14
IC61420	RANJEET SINGH HUNDAL	AC	08 Dec 14
IC61421	ROSHAN SINGH BUTOLA	INF	08 Dec 14
IC61423	VINOD KUMAR ADHIKARI	INF	08 Dec 14
IC61424	HIMANSHU BIJALWAN	AOC	08 Dec 14
IC61425	VIRENDER SINGH PHOGAT	ENGRS	08 Dec 14
IC61426	KARAVADI SRIKANTH	SIGS	08 Dec 14
IC61427	TATHAGATA DUTTA	AC	08 Dec 14
IC61428	PRASHANT BHARDWAJ	INF	08 Dec 14
IC61429	KULDEEP SINGH RATHEE	EME	08 Dec 14
IC61430	UMMANEEDI VENKATESWARA RAO	ARTY	08 Dec 14
IC61431	RAKESH KUMAR SINGH	INF	08 Dec 14
IC61432	GURPREET SINGH BALI	EME	08 Dec 14
IC61433	SUHEL Y SOUDAGAR	M/ INF	08 Dec 14
IC61434	PANKAJ KUMAR MISHRA	SIGS	08 Dec 14
IC61435	RANJIT R NAIR	AAD	08 Dec 14
IC61436	YOG KRISHAN PATAK	INF	08 Dec 14
IC61437	AMIT KOTNALA	INF	08 Dec 14
IC61438	RAM PAL DAHIYA	AC	08 Dec 14
IC61439	DHYAN CHAND HEISNAM	ASC	08 Dec 14
IC61440	PUSHPAJ KASHYAP	ARTY	08 Dec 14
IC61441	SATYA SUNDAR MISHRA	INF	08 Dec 14
IC61442	PRADEEP KUMAR DIKSHIT	INF	08 Dec 14
IC61443	VIPIN CHAUHAN	AOC	08 Dec 14

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
IC61444	DEVANAND M MATHPATI	INF	08 Dec 14
IC61445	SHAM DEV	AOC	08 Dec 14
IC61446	SOURAV NARAYAN DEY	INF	08 Dec 14
IC61447	SHIKHAR CHATURVEDI	INF	08 Dec 14
IC61448	ANISH BABU	ARTY	08 Dec 14
IC61449	MAYANK SHARMA	AAD	08 Dec 14
IC61450	SANGRAM SINGH	ENGRS	08 Dec 14
IC61451	SUNIL KUMAR	INF	08 Dec 14
IC61452	MP APPAIYA	INF	08 Dec 14
IC61454	ALOK MOHANTY	ENGRS	08 Dec 14
IC61455	RAJNEESH PARMAR	AC	08 Dec 14
IC61456	ANOOP SINGH	ARTY	08 Dec 14
IC61457	SURYAJEET AHLAWAT	EME	08 Dec 14
IC61458	VISHAL SHARMA	ARTY	08 Dec 14
IC61459	ABHISHEK BISHT	ARTY	08 Dec 14
IC61461	SIDHARTH SHUKLA	SIGS	08 Dec 14
IC61463	SUCHET KATHURIA	ENGRS	08 Dec 14
IC61464	AKSHAT ANAND	ARTY	08 Dec 14
IC61466	AMIT KADIAN	INF	08 Dec 14
IC61467	SACHIN KARNIK SHAM	INF	08 Dec 14
IC61468	ANJEET OHRI	INF	08 Dec 14
IC61469	MANDEEP SINGH GHUMMAN	ARTY	08 Dec 14
IC61470	RAJAT POKHRIYAL	AC	08 Dec 14
IC61471	THOUDAM ANAND SINGH	INF	08 Dec 14
IC61472	SANTOSH RAWAT	INF	08 Dec 14
IC61473	RAJAN VYAS	ARTY	08 Dec 14
IC61474	D SOUZA NESTOR DERRICK	INF	08 Dec 14
IC61475	SAMEER ARORA	ARTY	08 Dec 14
IC61476	RITESH SINGH	INF	08 Dec 14
IC61477	AMIT GUPTA	INF	08 Dec 14
IC61478	AMIT MATHEW	INF	08 Dec 14
IC61479	NAMIT RAI	ARTY	08 Dec 14
IC61480	KARTIKEYA KUKRETY	INF	08 Dec 14
IC61481	SUNIL KUMAR MOR	INF	08 Dec 14

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
IC61482	RAJAT SAHNI	ASC	08 Dec 14
IC61483	ROHIT SHARMA	SIGS	08 Dec 14
IC61485	RAHUL SLATHIA	INT	08 Dec 14
IC61486	PRAVINDER SINGH NEGI	ENGRS	08 Dec 14
IC61487	SUKHDEEP SINGH	EME	08 Dec 14
IC61488	GAURAV JAIN	ENGRS	08 Dec 14
IC61490	PRASHANT S APPAJI	SIGS	08 Dec 14
IC61491	ABHISHEK MOHAN	AAD	08 Dec 14
IC61492	RAHUL SANGA	AC	08 Dec 14
IC61494	PARAMVEER SINGH BISHT	EME	08 Dec 14
IC61495	AMAN ABROL	ARTY	08 Dec 14
IC61496	SUNIL KUMAR DOGRA	ASC	08 Dec 14
IC61497	HARSHAD H DANDEKAR	ARTY	08 Dec 14
IC61499	PRASHANT RANA	INF	08 Dec 14
IC61500	AMIT KHANNA	AOC	08 Dec 14
IC61501	SARABJEET SINGH	ARTY	08 Dec 14
IC61502	K S KEVIN	AAD	08 Dec 14
IC61503	ANKIT SARIN	ARTY	08 Dec 14
IC61505	AMRIK BADIAL	SIGS	08 Dec 14
IC61506	NASEER FAISAL ZIA	INF	08 Dec 14
IC61508	VIJENDER KUMAR SANGWAN	ASC	08 Dec 14
IC61509	BRIJENDRA SINGH	INF	08 Dec 14
IC61510	SHEHJAR DHAR	SIGS	08 Dec 14
IC61511	YASHOKIRTI GAUR	INF	08 Dec 14
IC61512	ASHEESH SHARMA	ARTY	08 Dec 14
IC61513	PUNEET PRATAP SINGH TOMAR	INF	08 Dec 14
IC61514	HARPREET SINGH KOHLI	INF	08 Dec 14
IC61515	INDER PAL SINGH	INF	08 Dec 14
IC61516	AMIT KUMAR	ASC	08 Dec 14
IC61517	KAMAL VENU NAIR	INF	08 Dec 14
IC61518	RAHUL	AC	08 Dec 14
IC61519	JAIVEER SINGH NEGI	INF	08 Dec 14
IC61520	JOJO JACOB	INF	08 Dec 14
IC61521	AKSHAY GARG	INF	08 Dec 14

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
IC61522	VIMAL KUMAR KHANDKA	INF	08 Dec 14
IC61523	RAJESH KUMAR SINGH	INF	08 Dec 14
IC61524	SANTOSH KUMAR	INF	08 Dec 14
IC61527	GOPAL SINGH	SIGS	08 Dec 14
IC61528	VIJAY SINGH DHILLON	AOC	08 Dec 14
IC61529	GHANSHYAM	M/ INF	08 Dec 14
IC61530	MANAS KHADANGA	AAD	08 Dec 14
IC61531	VIKAS SHARMA	INF	08 Dec 14
IC61532	JITENDRA SINGH	ENGRS	08 Dec 14
IC61533	PARTHASARATHY ROY	INF	08 Dec 14
IC61536	BRAHM DEV MALIK	AOC	08 Dec 14
IC61537	PRASHANT KACKER	INF	08 Dec 14
IC61538	DEEPAK JOSHI	SIGS	08 Dec 14
IC61540	SACHIN RASTOGI	INF	08 Dec 14
IC61541	VIMAL G NAIR	INF	08 Dec 14
IC61542	PANKAJ SHARMA	INF	08 Dec 14
IC61543	S RAVI PRAKASH	ARTY	08 Dec 14
IC61544	A VIJAYA KUMAR	ENGRS	08 Dec 14
IC61545	P MADHUSUDHANA RAO	INF	08 Dec 14
IC61546	YATENDRA KUMAR MAGRAIYA	AOC	08 Dec 14
IC61547	PARMOD SINGH	EME	08 Dec 14
IC61549	VIMAL KUMAR RAY	ARTY	08 Dec 14
IC61550	BABY PATTANAYAK	ARTY	08 Dec 14
IC61551	EARTH KUKRETY	AC	08 Dec 14
IC61552	RAMESH PRAKASH	M/ INF	08 Dec 14
IC61555	SUNIL KUMAR	SIGS	08 Dec 14
IC61556	SNEHAL RATHORE	INF	08 Dec 14
IC61557	AJAY KUMAR SHARMA	ENGRS	08 Dec 14
IC61558	VIKAS KUMAR BUDHIRAJA	ASC	08 Dec 14
IC61559	VIKRAMJIT SINGH SAHI	ARTY	08 Dec 14
IC61560	SUNIL SHARMA	AAD	08 Dec 14
IC61563	NITESHKUMAR VASANT SUTAR	AOC	08 Dec 14
IC61564	RAKESH CHANDER	INF	08 Dec 14
IC61565	GURBIR SINGH KAHLON	INF	08 Dec 14

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
IC61566	RAJAT PALLAV	INF	08 Dec 14
IC61567	UDAI BHANU	INF	08 Dec 14
IC61568	ABHISHEK SAXENA	AC	08 Dec 14
IC61569	MANOJ KUMAR	AVN	08 Dec 14
IC61571	SUMIT PALIWAL	INF	08 Dec 14
IC61572	KANWAR JEET SINGH	ARTY	08 Dec 14
IC61573	ASISH EDWIN MOSES	EME	08 Dec 14
IC61574	SUPRIT KUMAR BASU	AC	08 Dec 14
IC61575	UDAY MOHAN TIWARI	INF	08 Dec 14
IC61576	ANAND KUMAR	INT	08 Dec 14
IC61577	AMIT KUMAR SHARMA	ENGRS	08 Dec 14
IC61578	CHETAN TIWARI	ENGRS	08 Dec 14
IC61579	RAM MOHAN PUROHIT	M/ INF	08 Dec 14
IC61580	PAVEL ROY	INT	08 Dec 14
IC61581	RAHUL ARVIND PAWAR	ENGRS	08 Dec 14
IC61582	NARESH CHANDRA GAIROLA	INF	08 Dec 14
IC61583	PAWAN SINGH	ASC	08 Dec 14
IC61584	VIVEK KUMAR DWIVEDI	ARTY	08 Dec 14
IC61585	AJAY BHAT	SIGS	08 Dec 14
IC61586	SAGAR PRAKASH CHAUDHARY	ARTY	08 Dec 14
IC61587	TEJENDER SINGH	INF	08 Dec 14
IC61588	NAVEEN KUMAR C HIREMATH	EME	08 Dec 14
IC61589	GAURAV SINGH MANHAS	INF	08 Dec 14
IC61592	RAJESH PATHANIA	ASC	08 Dec 14
IC61593	AMIT KUMAR MISHRA	SIGS	08 Dec 14
IC61594	SIDDHARTH DILIP DESHMUKH	INF	08 Dec 14
IC61595	AMIT THAKUR	AAD	08 Dec 14
IC61596	ASHUTOSH SRIVASTAVA	AOC	08 Dec 14
IC61598	MUNISH GOEL	M/INF	08 Dec 14
IC61599	ALOK KUMAR	ENGRS	08 Dec 14
IC61600	SUDEEP DUTTA	INF	08 Dec 14
IC61601	S PRAVEEN	INF	08 Dec 14
IC61602	DEVASHIS NAYAK	INF	08 Dec 14
IC61603	CEEJO ANTONY	ENGRS	08 Dec 14

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
IC61604	GAURAV THAPPA	ARTY	08 Dec 14
IC61605	KV VIMAL	ARTY	08 Dec 14
IC61606	PRIYATOSH GANGULI	ARTY	08 Dec 14
IC61607	BHARAT SINGH	ASC	08 Dec 14
IC61608	MILIND SHINDE	INF	08 Dec 14
IC61609	AMANBIR SINGH GILL	AAD	08 Dec 14
IC61610	MANISH JOSHI	INF	08 Dec 14
IC61611	RAJNIKANT UPADHYAY	AC	08 Dec 14
IC61612	SURYA PRAKASH PANDEY	SIGS	08 Dec 14
IC61613	PREETINDER SINGH CHOHAN	INF	08 Dec 14
IC61615	TS NARAYAN	EME	08 Dec 14
IC61616	SY KELAPURE	ASC	08 Dec 14
IC61617	RANJEET SRIVASTAVA	INF	08 Dec 14
IC61618	VINEET TOMAR	INF	08 Dec 14
IC61619	MISHBAHUDDIN KHAN	ENGRS	08 Dec 14
IC61620	ACHLESH KUMAR DAHIYA	AEC	08 Dec 14
IC61621	HIMANSHU MISHRA	INF	08 Dec 14
IC61622	HARSH VARDHAN SHARMA	ARTY	08 Dec 14
IC61623	SUDHEER SHARMA	INF	08 Dec 14
IC61624	PANKAJ PRAKASH JAIN	ASC	08 Dec 14
IC61625	SHAMIM MIAN ANSARI	AOC	08 Dec 14
IC61626	SUBHRAKANT MOHANTY	ARTY	08 Dec 14
IC61627	K ARUN PRASAD	INF	08 Dec 14
IC61628	PARAMANANDA DAS	AAD	08 Dec 14
IC61629	ANURAG GUPTA	INF	08 Dec 14
IC61631	AMARDEEP SINGH RAWAT	SIGS	08 Dec 14
IC61632	MITESH KHATI	ARTY	08 Dec 14
IC61634	AMRISH MOGHE	AC	08 Dec 14
IC61635	PRASHANT KUMAR SINGH	M/ INF	08 Dec 14
IC61636	BHUPENDRA SINGH CHHIKARA	INF	08 Dec 14
IC61637	AJAY KUMAR PANDEY	ARTY	08 Dec 14
IC61638	NEERAJ KOHLI	EME	08 Dec 14
IC61639	YOGESH CHHETTRI	INF	08 Dec 14
IC61640	VIVEK SHARMA	ARTY	08 Dec 14

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
IC61642	NEERAJ CHAUDHARY	SIGS	08 Dec 14
IC61644	NIKHIL THACKAR	INF	08 Dec 14
IC61645	PRANAY SINDHU	INF	08 Dec 14
IC61646	RAJESH KUMAR JHA	EME	08 Dec 14
IC61647	MANOJ DHAPOLA	INF	08 Dec 14
IC61649	PANKAJ SHARMA	INF	08 Dec 14
IC61650	SUBHASH PRADHAN	INF	08 Dec 14
IC61651	APURV BHATNAGAR	INF	08 Dec 14
IC61653	ANOOP AP	EME	08 Dec 14
IC61655	MANOJ GURUNG	INF	08 Dec 14
IC61656	VINOD SHARMA	ARTY	08 Dec 14
IC61658	AMIT CHANDRA	ARTY	08 Dec 14
IC61659	SABYASACHI BAKUNDI	ARTY	08 Dec 14
IC61660	REUBEN VARGHESE PHILIP	INT	08 Dec 14
IC61661	SUMANT B KADAM	EME	08 Dec 14
IC61663	YATINDER KUMAR	M/INF	08 Dec 14
IC61664	SHAILENDRA YADAV	ARTY	08 Dec 14
IC61667	PARIHAL LAISRAM	ENGRS	08 Dec 14
IC61668	VIKRAM SINGH BHATI	AC	08 Dec 14
IC61669	NEERAJ TIWARI	INF	08 Dec 14
IC61671	RAJNISH SINGH SAKARWAR	ARTY	08 Dec 14
IC61672	PUSHPAK MISHRA	ARTY	08 Dec 14
IC61673	HARSHA VARDHAN PANDEY	INF	08 Dec 14
IC61674	LAXMAN SINGH DEOPA	INF	08 Dec 14
IC61675	P KALIAPPAN	SIGS	08 Dec 14
IC61676	SIDDHARTHA	ASC	08 Dec 14
IC61677	ANOOP KUMAR TRIPATHY	INF	08 Dec 14
IC61679	RAVI DUBEY	AVN	08 Dec 14
IC61681	BHAGAT PREET SINGH BEDI	AOC	08 Dec 14
IC61683	SAMBHAV KHUGSHAL	ARTY	08 Dec 14
IC61686	SREEKESH	ASC	08 Dec 14
IC61687	DEEPAK PANDEY	INF	08 Dec 14
IC61688	SANDEEP KAUSHIK	INF	08 Dec 14
IC61689	ANIL KUMAR KASHYAP	ARTY	08 Dec 14

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
IC61690	NANDA KUMAR KAIMAL	SIGS	08 Dec 14
IC61691	AJAY KANDPAL	EME	08 Dec 14
IC61692	SANJEEV KUMAR SUMBRIA	SIGS	08 Dec 14
IC61693	VIMAL MOHAN NAITHANI	INF	08 Dec 14
IC61694	PRADEEP KUMAR DWIVEDI	ARTY	08 Dec 14
IC61695	DILAWAR SINGH DHAKA	INF	08 Dec 14
IC61696	VIRJENDRA SINGH CHAUHAN	SIGS	08 Dec 14
IC61698	NAVEEN KUMAR SAH	ENGRS	08 Dec 14
IC61699	RAKESH KUMAR SINGH	AAD	08 Dec 14
IC61700	SANJAY KUMAR NARWAL	ENGRS	08 Dec 14
IC61701	SANDEEP RANA	SIGS	08 Dec 14
IC61703	JADHAV MILIND PANDURANG	EME	08 Dec 14
IC61704	RAMESH SINGH	ARTY	08 Dec 14
IC61705	RITESH KUMAR PANDEY	EME	08 Dec 14
IC61706	SANJEEV KUMAR NAIN	AOC	08 Dec 14
IC61707	PIYUSH KUMAR SHUKLA	ENGRS	08 Dec 14
IC61708	ABHINAV GUPTA	INF	08 Dec 14
IC61710	JAMES SAMUVAL	INF	08 Dec 14
IC61712	VIPIN KUMAR SRIVASTVA	ASC	08 Dec 14
IC61713	SANJEEV THAKUR	INF	08 Dec 14
IC61715	HIMANSHU SABHARWAL	INF	08 Dec 14
IC61716	JAI VIJAY SINGH RAWAT	INF	08 Dec 14
IC61717	KSHITIJ BHATIA	AC	08 Dec 14
IC61718	VAIBHAV JOSHI	INF	08 Dec 14
IC61719	AARON KANDPAL	INF	08 Dec 14
IC61720	ANIL KUMAR SHARMA	INF	08 Dec 14
IC61721	RAJIV BHATIA	AOC	08 Dec 14
IC61722	AJAYPAL KAUSHAL	ARTY	08 Dec 14
IC61725	VIJAY SINGH BALHARA	M/ INF	08 Dec 14
IC61726	ARUN KUMAR SINGH RAGHAW	EME	08 Dec 14
IC61727	GURJEET SINGH	EME	08 Dec 14
IC61728	RAHUL GAGNEJA	ARTY	08 Dec 14
IC61729	MVSNA BHAGAWAN	AAD	08 Dec 14
IC61730	TANIK SOOD	ARTY	08 Dec 14

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
IC61731	PRASHANT SINGH	ARTY	08 Dec 14
IC61732	RAMAN YADAV	M/INF	08 Dec 14
IC61733	RATANPAL SINGH ARYA	AOC	08 Dec 14
IC61734	AMIT KUMAR	SIGS	08 Dec 14
IC61735	PANKAJ KUMAR UPADHYA	ENGRS	08 Dec 14
IC61736	SURENDER SINGH	ENGRS	08 Dec 14
IC61738	TASHJEET SINGH DUGGAL	AC	08 Dec 14
IC61739	VIKRANT RANGRAO MORE	AEC	08 Dec 14
IC61741	HARPREET SINGH MANCHANDA	ASC	08 Dec 14
IC61742	VINEET KUMAR	INF	08 Dec 14
IC61743	NIRBHAY GAUTAM	AC	08 Dec 14
IC61744	ANIL JHINJHERIA	INF	08 Dec 14
IC61746	AMIT KUMAR MAHADEV ASWALE	ENGRS	08 Dec 14
IC61747	ANURAG PRAKASH	AC	08 Dec 14
IC61749	SAMEER MADHAL	INF	08 Dec 14
IC61752	BIDESH RANJAN DASGUPTA	INF	08 Dec 14
IC61753	DALIP SINGH	INF	08 Dec 14
IC61754	GAGAN DEEP GOGIA	ARTY	08 Dec 14
IC61755	SUDHIR KUMAR SINGH	INF	08 Dec 14
IC61756	ASHISH BAJPAI	INF	08 Dec 14
IC61757	ARUN BELWAL	INF	08 Dec 14
IC61759	AVRA JYOTI BHATTACHARJEE	EME	08 Dec 14
IC61760	KULDEEP SINGH	ARTY	08 Dec 14
IC61761	ABHISHEK SINGH GAUTAM	ARTY	08 Dec 14
IC61762	RISHI MAHAJAN	EME	08 Dec 14
IC61763	DEEPAK BASKANDI	ENGRS	08 Dec 14
IC61765	ATIN TANDON	ARTY	08 Dec 14
IC61767	S PRAVEEN BABU	EME	08 Dec 14
IC61768	MIDHUN MURALEEDHARAN	AC	08 Dec 14
IC61769	UDIT CONSUL	AAD	08 Dec 14
IC61770	HARI RAM OJHA	AEC	08 Dec 14
IC61771	MANOJ PATHANIA	INF	08 Dec 14
IC61772	HARSH KUMAR JHA	INF	08 Dec 14
IC61773	YASHWANT SINGH RANAWAT	AC	08 Dec 14

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
IC61774	ROHITASH KUMAR SHEORAN	INF	08 Dec 14
IC61775	MANEESH PUNETHA	ASC	08 Dec 14
IC61776	LEWIS ROHAN JOSHEPH ROBERT	ENGRS	08 Dec 14
IC61777	SAMIR SINGH KUSHWAH	INF	08 Dec 14
IC61778	PANKAJ SIROHI	AOC	08 Dec 14
IC61779	DHEERAJ KUMAR	SIGS	08 Dec 14
IC61780	AJAY BHARDWAJ	INF	08 Dec 14
IC61782	VINEET KAMAL GUPTA	SIGS	08 Dec 14
IC61783	DEWESH WAHI	INF	08 Dec 14
IC61784	DHEERAJ KUMAR TYAGI	AOC	08 Dec 14
IC61785	SHINDE SACHIN BABAJI	ENGRS	08 Dec 14
IC61786	RAVINDRA SINGH	ARTY	08 Dec 14
IC61787	NAVEEN MASIH	M/INF	08 Dec 14
IC61788	KUMAR SHIVAM DUBEY	SIGS	08 Dec 14
IC61789	NONGMAITHEMPRITIKUMARSINGH	INF	08 Dec 14
IC61790	SAMEER LAMBA	INF	08 Dec 14
IC61791	AMLAM CHATURVEDI	ARTY	08 Dec 14
IC61792	RITESH KOHLI	EME	08 Dec 14
IC61793	MANAV SHARMA	INF	08 Dec 14
IC61794	SANDEEP KUMAR	ARTY	08 Dec 14
IC61795	AMIT TRIPATHI	INF	08 Dec 14
IC61796	MUKESH KUMAR VERMA	INF	08 Dec 14
IC61797	ANANJAY SALDANHA	AC	08 Dec 14
IC61798	SABYASACHI DASH	ARTY	08 Dec 14
IC61799	BHUPENDER	INF	08 Dec 14
IC61800	GAURAV SINGH	INF	08 Dec 14
IC61801	ABHINAV VASHISTA	AC	08 Dec 14
IC61802	VIJAY RAWAT	INF	08 Dec 14
IC61803	VISHAL SHARMA	ENGRS	08 Dec 14
IC61805	VIJAY RANA	INF	08 Dec 14
IC61806	KSH MAHESHWOR SINGH	AAD	08 Dec 14
IC61807	SAWANT SANGRAM ANIL	INF	08 Dec 14
IC61808	CHAP SINGH GEHLAWAT	INF	08 Dec 14
IC61809	PEEYUSH BIST	ASC	08 Dec 14

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
IC61810	SANJEEV KUMAR	SIGS	08 Dec 14
IC61811	SATYENDRA SINGH BHOJ	ENGRS	08 Dec 14
IC61812	PRASHANT VELAYUDHAN	ARTY	08 Dec 14
IC61813	ABHISHEK KHANNA	ENGRS	08 Dec 14
IC61814	NAVEEN CHANDRA JOSHI	M/ INF	08 Dec 14
IC61815	NARENDER PAL	ASC	08 Dec 14
IC61817	NITIN KHAJURIA	INF	08 Dec 14
IC61818	KULWINDER SINGH MULTANI	AOC	08 Dec 14
IC61819	PIYUSH SHARMA	INF	08 Dec 14
IC61821	RAHUL MODGIL	SIGS	08 Dec 14
IC61822	ASHISH KASHYAP	ARTY	08 Dec 14
IC61823	KAUSTUB DASGUPTA	M/INF	08 Dec 14
IC61824	KK PREMDEEP	ENGRS	08 Dec 14
IC61825	SAURABH TIWARI	ARTY	08 Dec 14
IC61826	ROHIT PRAKASH RAI	SIGS	08 Dec 14
IC61827	MANEESH CHHETRI	ASC	08 Dec 14
IC61828	VISHAL SHARAN	ENGRS	08 Dec 14
IC61829	SUMIT PANT	INF	08 Dec 14
IC61831	RAVINDER SINGH NEGI	INF	08 Dec 14
IC61832	BEJENDER SINGH	ASC	08 Dec 14
IC61834	VIKRANT MEHTA	AC	08 Dec 14
IC61835	PRAVIN JANARDAN HARIDAS	SIGS	08 Dec 14
IC61836	GAURAV KAPILA	ARTY	08 Dec 14
IC61837	PRAVEEN KUMAR	EME	08 Dec 14
IC61838	GARGA DAS	ARTY	08 Dec 14
IC61839	RUPINDER JEET SINGH	INF	08 Dec 14
IC61841	RISHI BHANOT	ENGRS	08 Dec 14
IC61842	ROHIT JHA	AAD	08 Dec 14
IC61843	AMANPREET SINGH GILL	ARTY	08 Dec 14
IC61845	LANGOLJAM SUNINDRO SINGH	ARTY	08 Dec 14
IC61846	PARITOSH MITHAL	INF	08 Dec 14
IC61847	SATISH KUMAR	ENGRS	08 Dec 14
IC61848	SURENDER KUMAR KAUNTAE	INF	08 Dec 14
IC61849	KUNWAR SHAILENDERA SINGH	AOC	08 Dec 14

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
IC61851	SUMEET SHARMA	INF	08 Dec 14
IC61852	R JAGATH NARAYAN	INF	08 Dec 14
IC61854	MANEESH BIST	ARTY	08 Dec 14
IC61855	SANDEEP DATTA	M/ INF	08 Dec 14
IC61856	SOMBIR SINGH LAMBA	ASC	08 Dec 14
IC61857	MANU SHUKLA	ARTY	08 Dec 14
IC61858	VIPIN PRADHAN	INF	08 Dec 14
IC61859	ANURAG TIWARI	AAD	08 Dec 14
IC61860	AMIT TEOTIA	INF	08 Dec 14
IC61861	VIKRAM BISHT	INT	08 Dec 14
IC61863	MUKESH SHARMA	SIGS	08 Dec 14
IC61864	GAGAN SHARMA	INF	08 Dec 14
IC61865	PANKAJ SAINI	INT	08 Dec 14
IC61866	MANOJ KUMAR PANDIT	EME	08 Dec 14
IC61867	MUKESH KUMAR	ENGRS	08 Dec 14
IC61868	PRAHLAD RANA	ARTY	08 Dec 14
IC61869	UJJWAL PANCHAL	SIGS	08 Dec 14
IC61871	KUNAL MUKERJEA	AC	08 Dec 14
IC61872	SAMEER GUNTHEY	INF	08 Dec 14
IC61873	TARANJIT SINGH	ASC	08 Dec 14
IC61875	SHASHI GOPAL UPADHYAY	AAD	08 Dec 14
IC61876	SHAIENDRA KUMAR SINGH	INF	08 Dec 14
IC61877	SIVAKUMAR	INF	08 Dec 14
IC61878	VIRAM PAL	M/INF	08 Dec 14
IC61880	JACOB PHILIP	INF	08 Dec 14
IC61883	ROHIT MENON	ARTY	08 Dec 14
IC61884	DESVINDER SINGH AHLUWALIA	INF	08 Dec 14
IC61885	AGYAT MANU	INF	08 Dec 14
IC61886	RACHIT SAHNI	INF	08 Dec 14
IC61888	HIMMAT SINGH BRAICH	AC	08 Dec 14
IC61889	HIMANSHU ARORA	AOC	08 Dec 14
IC61891	RAJ KUMAR SINGH SENGAR	INF	08 Dec 14
IC61892	DEEPAK KUMAR	ENGRS	08 Dec 14
IC61893	INDER KUMAR GOSWAMI	ARTY	08 Dec 14

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
IC61894	MAHESH SURYANARAYANAN	ARTY	08 Dec 14
IC61897	ARVIND RAJHANS	INF	08 Dec 14
IC61899	SAILENDRA KUMAR DHIR	ARTY	08 Dec 14
IC61900	MRIDUL KANTI SINHA	EME	08 Dec 14
IC61901	SUMIT KUMAR MUNSHI	INF	08 Dec 14
IC61902	SREEKUMAR	EME	08 Dec 14
IC61903	SHASHANK TRIPATHI	ENGRS	08 Dec 14
IC61904	VIJAY SINGH RAWAT	ASC	08 Dec 14
IC61905	AZ SIDDIQUI	ARTY	08 Dec 14
IC61906	SAMPAT KUMAR	AOC	08 Dec 14
IC61908	VIKRAMADITYA SINGH PAL	INF	08 Dec 14
IC61910	MANISH TIWARI	INF	08 Dec 14
IC61911	SOAMI SARAN BHATNAGAR	SIGS	08 Dec 14
IC61913	MAYANK GOEL	AAD	08 Dec 14
IC61914	GV RAMESH KUMAR	INT	08 Dec 14
IC61915	NAGESH DHOUDIYAL	AC	08 Dec 14
IC61916	MUNISH SHARMA	INF	08 Dec 14
IC61919	SURESH CHAND RAMOLA	ENGRS	08 Dec 14
IC61920	DVN RAMAKANT	ARTY	08 Dec 14
IC61921	DILEEP NANDAN AGNIHOTRI	M/ INF	08 Dec 14
IC61922	NEERAJ GUPTA	AC	08 Dec 14
IC61923	SIDDHARTH UPADHYAYA	SIGS	08 Dec 14
IC61924	RUCHIR PANDE	INF	08 Dec 14
IC61927	SHALABH PULASTYA	ARTY	08 Dec 14
IC61928	RAVINDRA KUMAR PATRO	ARTY	08 Dec 14
IC61929	RAJESH KUMAR	ASC	08 Dec 14
IC61931	RAJUL SRIVASTAVA	ENGRS	08 Dec 14
IC61933	PVVS SUDHEER KUMAR	SIGS	08 Dec 14
IC61939	SOURAV BANERJEE	AOC	08 Dec 14
IC61940	SHAURYA VARDHAN	INF	08 Dec 14
IC61942	HAR AGAM PAL SINGH	ARTY	08 Dec 14
IC61943	MAULIN B MARTHAK	INF	08 Dec 14
IC61945	BIJUMONI KONWAR	INF	08 Dec 14
IC61946	NITIN TEWARI	AVN	08 Dec 14

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
IC61950	RAHUL SAXENA	INF	08 Dec 14
IC61952	ANUPAM ROY	INF	08 Dec 14
IC61953	AKHILESH KUMAR PAL	ENGRS	08 Dec 14
IC61955	SAURAV KUMAR BHATTACHARYA	INF	08 Dec 14
IC61968	AMIT DAGAR	AEC	08 Dec 14
IC61987	DEEP SINGH MAHLAWAT	AEC	08 Dec 14
IC61999	ARVIND KUMAR NAUTIYAL	AEC	08 Dec 14
IC62000	DHIRENDRA KUMAR	AEC	08 Dec 14
IC63724	ANURAG SHARMA	SIGS	13 Dec 14
IC63725	UMASHANKAR	ENGRS	13 Dec 14
IC63726	KANWARJEET SINGH	SIGS	13 Dec 14
IC63727	ASHISH SHORAN	AAD	13 Dec 14
IC63729	HARINDER SINGH SUHAG	ARTY	13 Dec 14
IC63730	VIKAS SINGH RANA	EME	13 Dec 14
IC63732	SANJAY KUMAR PANDEY	AAD	13 Dec 14
IC63733	ABHISHEK KUMAR SHRIVASTAVA	AAD	13 Dec 14
IC63735	RAVI KIRAN TOMAR	ENGRS	13 Dec 14
IC63737	C SENTHIL KUMARAN	SIGS	13 Dec 14
IC63738	VIJAY DHANKHAR	ENGRS	13 Dec 14
IC63739	KUDALE AMIT SHRIKANT	EME	13 Dec 14
IC63740	RAGHVENDRA AGRAWAL	INT	13 Dec 14
IC63741	MANEESH	ENGRS	13 Dec 14
IC63742	DEVEN DATTA	AAD	13 Dec 14
IC63744	VAIDHAV SINGH NIRBAN	ENGRS	13 Dec 14
IC63746	MAYANK SONI	EME	13 Dec 14
IC63747	SUNIL GAHLAUT	ENGRS	13 Dec 14
IC63748	ANUP V PILLAI	AAD	13 Dec 14
IC63749	HARISH KUMAR SPOLIA	AC	13 Dec 14
IC63750	DALIPARTI SREEKANTH	ENGRS	13 Dec 14
IC63752	P RADWEAP RV	SIGS	13 Dec 14
IC63753	ABHISHEK KUMAR	AAD	13 Dec 14
IC63755	ANGSHUMAN CHAKRABARTI	SIGS	13 Dec 14
IC63756	SURESH NARAYAN TRIPATHI	AAD	13 Dec 14
IC63758	SIDDHARTHA ACHARYA	ARTY	13 Dec 14

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
IC63760	BASAV RAJ	EME	13 DEC 14
IC-61525	ANSHU GUPTA	EME	08 DEC 2014
IC-61949	PRAMOD KANDIYAL	INF	08 DEC 2014
IC-61682	MAIHAK SENGUPTA	ARTY	08 DEC 2014
IC-61685	SUCHIT R	ENGRS	08 DEC 2014

IC-61994	SUSHIL KUMAR CHAVAN	INF	
----------	---------------------	-----	--

—08 DEC 2014

IC-63277	RAJINDER SINGH	ENGRS	
----------	----------------	-------	--

—14 JUN 2014

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
64934	TRILOK SINGH MEHRA	ASC	04 Nov 14
64935	PRADEEP CHAUDHARY	ARTY	04 Nov 14
64936	MANEESH SENBAR	INF	04 Nov 14
64937	SHASHANK SHARMA	ARTY	04 Nov 14
64939	JANMEJAY MISHRA	INF	04 Nov 14
64940	SOROUNT YOGVEER SINGH KRISHNA KUMAR	AOC	04 Nov 14
64941	ASHISH KUMAR DUBEY	ARTY	04 Nov 14
64942	BT RAMAIAH	SIGS	04 Nov 14
64943	SARKAR ABHIJEET BISHWANATH	AAD	04 Nov 14
65151	PRAVEEN KUMAR	INF	03 Nov 14
65152	SIDHARTH PANT	M/INF	03 Nov 14
65153	MENON SURESH SUKUMARAN	INT	03 Nov 14
65154	AMARJEET SINGH	INF	03 Nov 14
65155	MANDEEP SINGH	ARTY	03 Nov 14
65156	PRATYUSH GAUTAM	AOC	03 Nov 14
65157	SAMEER TAMHANKAR	ARTY	03 Nov 14
65158	DHARAMVEER SINGH	AVN	03 Nov 14
65159	SHAILENDRA SINGH	INF	03 Nov 14
65160	NAIR JEETENDRA V	ASC	03 Nov 14
65161	ANUP CHAKRABORTY	INT	03 Nov 14
65163	LOKESH KUMAR VERMA	ENGRS	03 Nov 14

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
65164	LOKESH JOSHI	INF	03 Nov 14
65165	ROHIT VERMA	ARTY	03 Nov 14
65166	JAYANT SINGH	ASC	03 Nov 14
65167	NUNGLEPPAM BUDDHIMANTA SINGH	INF	03 Nov 14
65168	SUDHIR PARMAR	INF	03 Nov 14
65169	VIJAY UNIYAL	INF	03 Nov 14
65170	RAHUL SEQUEIRA	AOC	03 Nov 14
65171	RAJESH PRASHER	EME	03 Nov 14
65172	SHURVEER DEORA	ASC	03 Nov 14
65173	MANISH GUPTA	AC	03 Nov 14
65174	AWINASH KUMAR	INF	03 Nov 14
65175	KUNAL BHATNAGAR	AOC	03 Nov 14
65176	ABHIJIT NAIR	ARTY	03 Nov 14
65177	NITIN KUMAR SINGH	INF	03 Nov 14
65179	RAHUL SINGH	ENGRS	03 Nov 14
65180	PREET SINGH	ENGRS	03 Nov 14
65181	ATUL RAJ SINGH	ASC	03 Nov 14
65182	RAHUL BADOLA	AAD	03 Nov 14
65183	NIKHIL PENDHARKAR	AC	03 Nov 14
65184	PRABHU RAMDAS WAMAN	INF	03 Nov 14
65185	JAIPAL SINGH	ENGRS	03 Nov 14
65186	PAVINDER SINGH	INF	03 Nov 14
65187	ASHOK SINGH CHAUHAN	INF	03 Nov 14
65188	ANAND JHA	INF	03 Nov 14
65189	TARUN KUMAR	ARTY	03 Nov 14
65191	RAHUL PANWAR	INF	03 Nov 14
65192	HARMINDER SINGH	ARTY	03 Nov 14
65193	RAJESH KUMAR JHINGIA	M/INF	03 Nov 14
65194	RK VIKRAM	INF	03 Nov 14
65196	KALESH K RAMAN	ENGRS	03 Nov 14
65197	MUKESH	ASC	03 Nov 14
65198	AMANPREET SINGH	ARTY	03 Nov 14
65199	ISHWAR SINGH DAHIYA	ARTY	03 Nov 14
65200	RAJINDER SINGH	INF	03 Nov 14

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
65201	DENNIS ANDREW JOHNSON	ENGRS	03 Nov 14
65202	PANKAJ CHAUHAN	ARTY	03 Nov 14
65204	ANIL KUMAR SHARMA	INF	03 Nov 14
65205	RISHI DUBEY	INF	03 Nov 14
65207	SHIVENDRA PAL SINGH RAWAI	ARTY	03 Nov 14
65208	RAMESH DABER	INF	03 Nov 14
65209	PARAM VIR SINGH JAMWAL	INF	03 Nov 14
65210	RAN SINGH	INF	03 Nov 14
65211	AMIT BHARDWAJ	INF	03 Nov 14
65214	RIPAN JAIN	AOC	03 Nov 14
65215	MAULIK CHANDER	ARTY	03 Nov 14
65216	PUJARI DHEERAJ S	M/INF	03 Nov 14
65218	NIKHIL KUMAR	AOC	03 Nov 14
65219	SHAILENDRA SINGH	INF	03 Nov 14
65220	JEEVAN B	INF	03 Nov 14
65221	AHMER IQBAL	ARTY	03 Nov 14
65222	SURAJ PRAKASH DASH	ARTY	03 Nov 14
65223	SHIBU SL	INF	03 Nov 14
65225	SUDHANSHU GUPTA	ASC	03 Nov 14
65226	SEETENDRA SINGH	INF	03 Nov 14
65228	DHIRENDRA SINGH	ARTY	03 Nov 14
65229	ROHIT GANGULI	INF	03 Nov 14
65230	GOPAL SONI	ARTY	03 Nov 14
65231	SUSHANT KUMAR JHA	ENGRS	03 Nov 14
65232	PRASHANT SINGH	ARTY	03 Nov 14
65233	ANAND KUMAR	INF	03 Nov 14
65235	ADITYA KUMAR DEVRANI	ARTY	03 Nov 14
65236	BHUPINDER SINGH	INF	03 Nov 14
65238	HEISNAM PRITAM SINGH	ARTY	03 Nov 14
65240	KUMUD MAINI	INF	03 Nov 14
65241	PS PRASANNA	AC	03 Nov 14
65242	AMIT JOHN COUTINHO	ARTY	03 Nov 14

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
65243	RAMESHWAR NATH JHA	AAD	03 Nov 14
65245	IMRAN AHMAD SIDDIQI	INF	03 Nov 14
65246	BALWAN SINGH	INF	03 Nov 14
65247	RAHUL PANDEY	ASC	03 Nov 14
65248	VIVEK SINGH	AAD	03 Nov 14
65249	MUKUND GURURAJ	INF	03 Nov 14
65250	TRIBHUVAN PANT	INF	03 Nov 14
65251	HARIOM SINGH BHANDARI	EME	03 Nov 14
65252	KARAN BIR SAHI	ARTY	03 Nov 14
65254	CHARUL SHARMA	AC	03 Nov 14
65256	D KHOLI	INF	03 Nov 14
65257	YUVRAJ SINGH RATHORE	INT	03 Nov 14
65258	ROHIT THOOL	AAD	03 Nov 14
65259	SHAILENDER SINGH	INF	03 Nov 14
65263	KANISHKA	ARTY	03 Nov 14
65265	GAURAV THAPA	INF	03 Nov 14
65266	PRATIM BANERJEE	AOC	03 Nov 14
65267	HARSH GUSAIN	M/INF	03 Nov 14
65268	INDERJEET SINGH	INF	03 Nov 14
65901	PARVIT KUMAR SIWACH	EME	06 Nov 14
65902	SUPINDER SINGH SETHI	ENGRS	06 Nov 14
65904	VIKRAM BIRRA	EME	06 Nov 14
65905	PAWAN YADAV	EME	06 Nov 14

IC-65203	REEMA SOBTI	AEC
----------	-------------	-----

—01 MAR 2015

WS-00748	D' COSTA ELSIE	ENGRS
----------	----------------	-------

—08 SEP 2014

Capt to be Maj

69577	ARJUN A	ENGRS	12 JUN 11
-------	---------	-------	-----------

Capt to be Major

1440	BHAVANA CHOUKSEY	ENGRS	WESO-31 (NT)	22 Mar 09	22 Mar 15
1442	CHERIAN SAUMYA RACHEL	AOC	WESO-31 (NT)	22 Mar 09	22 Mar 15
1447	BHAMA KAPUR	AOC	WESO-31 (NT)	22 Mar 09	22 Mar 15
1448	REVATI PATHANIA	ASC	WESO-31 (NT)	22 Mar 09	22 Mar 15
1465	DEEPTI SHARMA	AOC	WESO-31 (NT)	22 Mar 09	22 Mar 15
1467	PRIYANKA RATHORE	AOC	WESO-31 (NT)	22 Mar 09	22 Mar 15
1488	RITAMBHARA KOTIYAL	INT	WESO-31 (NT)	22 Mar 09	22 Mar 15
1500	POONAM THAPA	AOC	WESO-31 (NT)	22 Mar 09	22 Mar 15
1509	RATTANDEEP KAUR NARANG	AOC	WESO-31 (NT)	22 Mar 09	22 Mar 15
1511	VISHNUPRIYA K	AOC	WESO-31 (NT)	22 Mar 09	22 Mar 15
1517	SURJIT KAUR	ASC	WESO-31 (NT)	22 Mar 09	22 Mar 15
1527	CHHAVI SAXENA	ASC	WESO-31 (NT)	22 Mar 09	22 Mar 15
1540	USHA KUMARI	ENGRS	WESO-31 (NT)	22 Mar 09	22 Mar 15

SHORT SERVICE COMMISSION(SSCW)

Lt to be Capt

45501	PRIYANKA BANSOD	SIGS	20 Mar 11	SSCW-07 (T)	20 Apr 11	20 Apr 13
-------	-----------------	------	-----------	-------------	-----------	-----------

SANKAR BOSE
Dy Dir. MS 8C

ARMY BRANCH

No. 189, dated 17th July 2015—The President is pleased to make the following promotions :-

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Capt

Lt Vijay Kumar Bariwal	TA-42756	(Engineer TA)	02 Aug 13
Lt Rohan Yogesh Sakhare	TA-42757	(Engineer TA)	02 Aug 13
Lt Sudhir Nanda	TA-42758	(Engineer TA)	02 Aug 13
Lt Deepak Gupta	TA-42763	(Engineer TA)	12 Apr 14
Lt Raj Kumar Patel	TA-42776	(Engineer TA)	23 Dec 13

B.B. JOSHI
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 190, Dated 20th July 2015—The President is pleased to make the following promotion:—

REGULAR ARMY

ARMY ORDNANCE CORPS

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR MAJOR

SUBEDAR MAJOR	AMN TECH	PURUSHOTHAMAN CK	JC724223H	01 JAN 2015
SUBEDAR MAJOR	AMN TECH	SUNIL KUMAR DAS	JC724276F	01 FEB 2015
SUBEDAR MAJOR	CLK (IM)	SATWANT SINGH	JC725888L	1 JAN 2015

SUBEDAR MAJOR	CLK (SD)	MAHENDRA SINGH	JC725915K	01 MAR 2015
SUBEDAR MAJOR	CLK (IM)	UTTAM KUMAR SINHA	JC726317Y	01 APR 2015
SUBEDAR MAJOR	SKT (SIG)	SHRIKANT PANDEY	JC726334Y	01 FEB 2015
SUBEDAR MAJOR	SKT (MT)	M RAJ KUMAR	JC724895P	01 MAR 2015
SUBEDAR MAJOR	SKT (MT)	ASHOK KUMAR	JC724945P	01 MAR 2015
SUBEDAR MAJOR	SKT (MT)	RAJENDRA PRASAD SINGH	JC724960K	01 MAR 2015
SUBEDAR MAJOR	DVR (MT)	KISHOR UPAS RAO LUTE	JC728258W	01 MAR 2015

To be Substantive Subedar

SUBEDAR	AT	GHANA SHYAM MALLICK	JC728148F	01 JAN 2015
SUBEDAR	AT	A AROKIA SAMY	JC728169X	01 FEB 2015
SUBEDAR	AT	SANJAYA KUMAR SAHOO	JC728220M	01 FEB 2015
SUBEDAR	AT	P JAI KUMAR	JC728218P	01 FEB 2015
SUBEDAR	AT	AJI MATHEW	JC728323L	01 FEB 2015
SUBEDAR	AT	N VINOD	JC728219X	01 FEB 2015
SUBEDAR	AT	DARSHAN SINGH	JC728170M	01 FEB 2015
SUBEDAR	AT	SUNIL C KUMAR	JC728217M	01 FEB 2015
SUBEDAR	AT	MOHAN SINGH	JC728428P	01 MAR 2015
SUBEDAR	AT	ROSHAN LAL	JC728324N	01 MAR 2015
SUBEDAR	AT	YASHPAL SINGH	JC728325W	01 MAR 2015
SUBEDAR	AT	SANJAY KUMAR	JC728326Y	01 APR 2015
SUBEDAR	AT	GHADI SUNIL SAHADEO	JC728327F	01 APR 2015
SUBEDAR	AT	DAULAT RAM BERWAL	JC728328K	01 APR 2015
SUBEDAR	AT	RAWAT BIRINDER SINGH INDER SINGH	JC728329M	01 APR 2015
SUBEDAR	AT	DHURVE ARUN RAGHOJI	JC728330F	01 APR 2015
SUBEDAR	AT	SATHEESAN K	JC728454W	01 APR 2015
SUBEDAR	AT	JEEVAN KUMAR	JC728331K	01 APR 2015
SUBEDAR	AT	TEJ SINGH NATHAWAT	JC728332M	01 APR 2015
SUBEDAR	AT	SETHU MADHAVAN P	JC728333P	01 APR 2015
SUBEDAR	AT	PAWAR GANESH SHANKAR	JC728334X	01 APR 2015
SUBEDAR	CLK (SD)	GUPTESHWAR NATH SINGH	JC729449X	01 JAN 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	SANGALE RAMDAS JAGANNATH	JC729641F	01 JAN 2015
SUBEDAR	CLK (SD)	MOHAN LAL	JC729619W	01 JAN 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	TARAR GOPAL DNYANOBA	JC729686F	01 JAN 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	KRISHNA BHARTI	JC729687K	01 JAN 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	MS ABDUL RAZAK	JC729644P	01 JAN 2015

SUBEDAR	CLK (SD)	RABINDRA NATH DAS	JC729645X	01 JAN 2015
SUBEDAR	CLK (SD)	SHAIKH ISSAK MAHEBUB	JC729646A	01 FEB 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	VENU GOPALAN NAIR B	JC729688M	01 FEB 2015
SUBEDAR	CLK (SD)	SHRI RAM PRAJAPATI	JC729647H	01 FEB 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	ANIL KUMAR V (KARIKUZAI)	JC729648L	01 FEB 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	SHIV PRAKASH SINGH KUSHWAH	JC729649N	01 FEB 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	MURALIDHAR SAHU	JC729650H	01 FEB 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	RATTAN SINGH	JC729651L	01 FEB 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	RAJESH KUMAR	JC729652N	01 FEB 2015
SUBEDAR	CLK (SD)	VIRENDRA PRATAP	JC729653W	01 FEB 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	BINOD KUMAR MANDAL	JC729654Y	01 FEB 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	P MOHAN DAS	JC729690K	01 FEB 2015
SUBEDAR	CLK (SD)	RAM KRISHNA	JC729655F	01 FEB 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	C VENKATESWARA BABU	JC729656K	01 FEB 2015
SUBEDAR	CLK (SD)	HUKAM SINGH	JC729657M	01 FEB 2015
SUBEDAR	CLK (SD)	DHARAMPAL YADAV	JC729658P	01 FEB 2015
SUBEDAR	CLK (SD)	ISHWAR SINGH	JC729659X	01 FEB 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	BHAMARE DIPAK NAMADEO	JC730019A	01 FEB 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	NALE VILAS NAMADEO	JC729660M	01 FEB 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	KUDALE MAHENDRA KUMAR VITTHAL	JC729661P	01 MAR 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	KHILARE HANUMANT CHANDU	JC729662X	01 MAR 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	KASHMIR SINGH	JC729693X	01 MAR 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	SWAPAN KUMAR BARMAN	JC729897K	01 MAR 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	AP SEKAR	JC729694A	01 MAR 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	NAHAR SINGH	JC729695H	01 MAR 2015
SUBEDAR	CLK (SD)	NAWAL KISHORE SINGH	JC729696L	01 MAR 2015
SUBEDAR	CLK (SD)	HARE RAM TIWARI	JC729697N	01 MAR 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	RAM LUBHAYA	JC729698W	01 MAR 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	SAILENDRA KUMAR MAHUNTA	JC729699Y	01 MAR 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	RAJ KUMAR SINGH	JC729730A	01 APR 2015
SUBEDAR	CLK (SD)	SUDEESH KUMAR M	JC729701L	01 APR 2015
SUBEDAR	CLK (SD)	KUNWAR PAL	JC729703W	01 APR 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	JAGAT SINGH MANOLA	JC729704Y	01 APR 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	PAWAR ANIL RANGA RAO	JC729705F	01 APR 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	DHANNA RAM	JC729706K	01 APR 2015

SUBEDAR	CLK (IM)	SATNAM SINGH	JC729707M	01 APR 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	KAMBALE NAVANATH DADU	JC729708P	01 APR 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	AZAD SINGH	JC729709X	01 APR 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	JITEN BORA	JC729710M	01 APR 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	MD JALILUDDIN	JC729731H	01 APR 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	SHAKIR HUSSAIN	JC729732L	01 APR 2015
SUBEDAR	CLK (IM)	UTTAM SINGH YADAV	JC729733N	01 APR 2015
SUBEDAR	SKT (GS&C)	SATYAWAN	JC729794L	01 JAN 2015
SUBEDAR	SKT (SIG)	UTPAL MANDAL	JC729812H	01 JAN 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	SWAPAN KUMAR BALA	JC729878Y	01 JAN 2015
SUBEDAR	SKT (WEP)	KRISHNAN P	JC729880W	01 JAN 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	ADHIR KUMAR BISWAS	JC730114M	01 JAN 2015
SUBEDAR	SKT (GS&C)	WAYKAR ARUN BABAN	JC730133X	01 JAN 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	MANOJIT KUMAR DHAR	JC730135H	01 JAN 2015
SUBEDAR	SKT (GS&C)	GOPAL ROY	JC730137N	01 JAN 2015
SUBEDAR	SKT (WEP)	MANOJ KUMAR SINGH	JC730199N	01 JAN 2015
SUBEDAR	SKT (AMN)	MALKIAT CHAND	JC730200X	01 JAN 2015
SUBEDAR	SKT (WEP)	SUNIL KUMAR SINGH	JC730205W	01 JAN 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	BHOOP SINGH	JC730206Y	01 JAN 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	THIREN CHANDRA RAY	JC730207F	01 JAN 2015
SUBEDAR	SKT (SIG)	ABHAY KUMAR LENKA	JC730208K	01 JAN 2015
SUBEDAR	SKT (SIG)	SAFIKUL ISLAM	JC730209M	01 JAN 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	DAL SINGARPAL	JC730210F	01 JAN 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	BIKARTAN PAL	JC730211K	01 JAN 2015
SUBEDAR	SKT (AMN)	DEBA PRASAD MANTRY	JC730237N	01 JAN 2015
SUBEDAR	SKT (AVN)	DHARMENDER SINGH	JC730213P	01 JAN 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	ANIL R	JC730214X	01 JAN 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	MADAN YADAV	JC730215A	01 JAN 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	SAHAB SINGH	JC730216H	01 JAN 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	MAHESHWAR NATH RAI	JC730217L	01 JAN 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	SHEMBRE NANA RAMA	JC730218N	01 JAN 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	DESHMUKH SANJAY BALAKRISHNA	JC730219W	01 JAN 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	CHORAT SANJAY MAHADEO	JC730220L	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	UTTAM SINGH	JC730221N	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	RAJENDRA KUMAR YADAV	JC730222W	01 FEB 2015

SUBEDAR	SKT (MT)	DEVENDER SINGH	JC730223Y	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	RAMESH CHAND	JC730224F	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	GIRDHAR YADAV	JC730225K	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	BIDHAN BHOWMICK	JC730226M	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	HET RAM	JC730227P	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	RAJENDER KUMAR	JC730228X	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	HARBIR SINGH	JC730229A	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (AMN)	MEGHRAJ	JC730230P	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (AMN)	SUSHANT BISWAS	JC730231X	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	DHANANJAY CHAKRABORTY	JC730232A	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (SIG)	SATISH KUMAR	JC730233H	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	ASHOKAN AM	JC730234L	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (GS&C)	K VENKATA RAMANA	JC730241F	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	LALIT KUMAR KAR	JC730281H	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	SURENDRA KUMAR	JC730282L	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	SURENDER SINGH	JC730440P	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (AMN)	RAJ RISHI	JC730284W	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	ARBIND UPADHYA	JC730285Y	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	KALYAN MALLIK	JC730286F	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	PRAKASH KUMAR ADHIKARI	JC730341M	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (GS&C)	SURENDRA KUMAR SHARMA	JC730287K	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	JAGPAL SINGH	JC730376H	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (AMN)	BHAGWAN SINGH	JC730288M	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	ADHAV RAJARAM SHAHAJI	JC730242K	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	PADAM SINGH	JC730289P	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	HARPAL SINGH	JC730290K	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	NIRMAL SINGH YADAV	JC730291M	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	MANOJ KUMAR ROY	JC730292P	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (AMN)	RAM PRASAD	JC730293X	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (AMN)	RAM BHAGAT SAHOO	JC730294A	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	M RAJAN KUMAR SINGH	JC730369M	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	SUBARANA SINGHA	JC730375A	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (SIG)	ANAND JADHAV	JC730295H	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (AMN)	DILIP SINGH	JC730404K	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	VIJAY KUMAR	JC730296L	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (SIG)	BAWA DATTA SAINI	JC730297N	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	SHIV SAGAR	JC730298W	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (AVN)	PRAHLAD RAM	JC730299Y	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	NARENDER SINGH	JC730301L	01 FEB 2015

SUBEDAR	SKT (MT)	NARENDER SINGH	JC730302N	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	KARAN SINGH	JC730303W	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	RETNA KUMAR PN	JC730243M	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (GS&C)	SATYA PRAKASH SAXENA	JC730305F	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (AMN)	RAJU K	JC730306K	01 FEB 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	JANARDAN CHAKRABORTY	JC730307M	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (AMN)	YAVVARI GANAPATI	JC730244P	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (AMN)	VIJAY KUMAR	JC730405M	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	KADAM SURYAKANT TUKARAM	JC730308P	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	PARMINDER SINGH	JC730309X	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	JASBIR SINGH	JC730311P	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	DHARAM VIR	JC730312X	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	KABRABAM DINA KUMAR SINGH	JC730314H	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	ANIL KUMAR	JC730315L	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	ATUL CHANDRA RAY	JC730316N	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	SUDARSAN PRADHAN	JC730317W	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (GS&C)	ASHOKA KUMAR JENA	JC730318Y	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (GS&C)	TARANI KANTA SARKAR	JC730639W	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (GS&C)	RAGHUBIR SINGH	JC730342P	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (GS&C)	JALWA KHAN	JC730343X	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (GS&C)	BAJRANG LAL SAIN	JC730319F	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (GS&C)	TARA CHAND SAINI	JC730320W	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	PRADIP KUMAR PRADHAN	JC730321Y	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (GS&C)	BHAWANI SINGH SEKHAWAT	JC730322F	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (GS&C)	GOVIND PRASAD JAT	JC730245X	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (SIG)	PRAVASH KUMAR PATRA	JC730344A	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (SIG)	OM PRAKASH	JC730324M	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (SIG)	TARA CHAND	JC730325P	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (AMN)	SHIVENDRA SINGH	JC730246A	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	BALBIR SINGH	JC730326X	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (SIG)	RAMA KRISHNA KAR	JC730327A	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (WEP)	MANOJ KUMAR	JC730328H	01 MAR 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	PRAFULLA BARIK	JC730329L	01 APR 2015
SUBEDAR	SKT (GS&C)	AMBIKA PRASAD DWIVEDI	JC730330A	01 APR 2015
SUBEDAR	SKT (GS&C)	LADEKAR RAJESH KUMAR KRISHNAJI	JC730331H	01 APR 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	KADAM SHIVAJI GANPATI	JC730332L	01 APR 2015
SUBEDAR	SKT (GS&C)	JOGESWAR PADHAN	JC730334W	01 APR 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	TAPAN KUMAR PRADHAN	JC730335Y	01 APR 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	PRITAM SINGH	JC730336F	01 APR 2015

SUBEDAR	SKT (MT)	NITAI CHANDRA MAHANTA	JC730370F	01 APR 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	SHYAMAL KUMAR GHOSH	JC730337K	01 APR 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	SAMIR KANTA BISWAS	JC730338M	01 APR 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	SAFIKUL MALITYA	JC730339P	01 APR 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	JAMIRUL ISLAM	JC730340K	01 APR 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	RABI NARAYAN DHAL	JC730387X	01 APR 2015
SUBEDAR	SKT (MT)	MANI SHANKAR YADAV	JC730388X	01 APR 2015
SUBEDAR	SHGD	OMESH CHANDER	JC729805M	01 JAN 2015
SUBEDAR	SHGD	RAMESH KUMAR	JC729930W	01 JAN 2015
SUBEDAR	SHGD	ADYA PRASAD YADAV	JC730049X	01 JAN 2015
SUBEDAR	SHGD	SHIV CHANDRA JHA	JC730052X	01 JAN 2015
SUBEDAR	SHGD	AJAYAN C	JC730053A	01 JAN 2015
SUBEDAR	SHGD	UDAI NARAIN SINGH YADAV	JC730025N	01 JAN 2015
SUBEDAR	SHGD	VIPIN GIRI	JC730093F	01 FEB 2015
SUBEDAR	SHGD	GAMBHEER SINGH RAWAT	JC730094K	01 FEB 2015
SUBEDAR	SHGD	DEVENDRA KUMAR MANDAL	JC730144K	01 FEB 2015
SUBEDAR	SHGD	ASHOK KUMAR GURJAR	JC730095M	01 APR 2015
SUBEDAR	SHGD	KOKKILI GADA RAJA RAO	JC730096P	01 APR 2015
SUBEDAR	SHGD	KETI RAJ SEKHAR RAO	JC730097X	01 APR 2015
SUBEDAR	SHGD	MANI MARAN N	JC730098A	01 APR 2015
SUBEDAR	SHGD	SALENDER KUMAR	JC730108Y	01 APR 2015
SUBEDAR	SHT	NANDU CHAUDHARY	JC729950K	01 JAN 2015
SUBEDAR	SHT	JASBIR SINGH	JC729993Y	01 JAN 2015
SUBEDAR	SHT	KAMLESH PRASAD PANDEY	JC729994F	01 FEB 2015
SUBEDAR	SHT	UMESH KUMAR SINGH	JC729995K	01 FEB 2015
SUBEDAR	DVR MT	SABU METHREW	JC730035X	01 JAN 2015
SUBEDAR	DVR MT	VIJAI SINGH	JC730092Y	01 JAN 2015
SUBEDAR	DVR MT	CHANDRAN M	JC730398F	01 JAN 2015
SUBEDAR	DVR MT	V VENKTESWARLU	JC730433Y	01 JAN 2015
SUBEDAR	ARTSN (WW)	PANCHAL DAHYA BHAI MOTI BHAI	JC730636H	01 MAR 2015

SPECIAL LIST

ARMOURED CORPPS

To Be Substantive Risaldar Major (Religious Teacher)

Risaldar (Pandit)	Rajendra Prasad Tiwari	(JC-226906M)	01 Sep 2014
----------------------	------------------------	--------------	-------------

To Be Substantive Risaldar

Naib Risaldar (Granthi)	Palwinder Singh	(JC-240217W)	*02 Jun 2014
* (Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2014 Without effect on Pay and allowances)			
Naib Risaldar (Pandit)	Vinod Kumar Pateriya	(JC-240218Y)	01 Jun 2014

To be Naib Risaldar (RT)

Raghu Nandan	(JC-246643A)	27 Sep 2014
Jitendra Kumar Dadhich	(JC-246645L)	27 Sep 2014
Ratanesh Pandey	(JC246646N)	27 Sep 2014

RAJEEV JAUHARI
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 191, dated 21st July 2015—The President is pleased to permit the under mentioned officer to retire with permission to retain his rank and wearing of uniform :-

TERRITORIAL ARMY

RETIREMENT

Lt Col S K Barve

TA-42135

ENGR (TA)

31 Dec 2014 (AN)

B.B. JOSHI
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 192, dated 22nd July 2015—The President is pleased to make the following promotions:-

CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 04 Feb 2012 under the heading “Regular Army, Permanent Commission”, and sub heading “Capt to be Maj” the names of the following officer is deleted:-

IC-69577 ARJUN A, ENGRS

SANKAR BOSE
Dy Dir
MS 8C
For Military Secy

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I—SEC. 4]—91 Copies.